

9th September, 2023

To,

The Manager,
Bombay Stock Exchange Limited,
Corporate Relationship Department,
Phirozee Jeejeebhay Tower,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400 001
BSE Scrip Code:533260

To,

The Manager,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C/1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai-400 051,
NSE Symbol: careerp

Sub: Newspaper Advertisement of Post-Notice of 23rd Annual General Meeting — Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Respected Sir/Madam,

In terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspapers advertisement regarding completion of dispatch of Annual Report and Notice of 23rd Annual General Meeting through electronic mode published in "Indian Express"-Kota, in English Lanuage, "Chambal Sandesh"-Kota, in Hindi Language, "Financial Express"-Chandigarh in English language and in "Jan satta" —Chandigarh, in Hindi language on 8th September, 2023.

The above information is also available on the website of the Company at www.cpil.in

You are requested to kindly take the above information on record.

Thanking you, For Career Point Limited

Manmohan Pareek Company Secretary (ACS34858)

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE Branch Office: ICICI Bank Ltd, 3rd Floor, Plot No- 23, New Rohtak Road, Karol Bagh, Delhi- 110005

Whereas

The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Bank Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that As the borlower latest or legs the amount, induced shreeby given to the borlower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the belowmentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the

Sr. No.	Name of the Borrower/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Symbolic Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)	Name of Branch
1.	Alveera Stone Suppliers/ Abdul Hameed/ Mohammad Husain/ '687005501175/ 687055015061	House No 3 Ch 16 Vigyan Nagar Kota/ September 06, 2023	May 18, 2023 Rs. 55,27,598.00/-	Kota
		D-300, Bhamashah Krishi Upaj Mandi Kota/ September 06, 2023	March 31, 2023 Rs. 51,11,111.00/-	Kota

he above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else" the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date : September 08, 2023 Place : Kota Authorized Officer

Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: 802, Natraj By Rustomjee, Western Express Highway, Sir M.V. Road, Andheri East, Mumbai-400069, Maharashtra

Alwar Branch Office: Plot no.24, Sharda Enclave, 2nd Floor, Scheme no.1, Bhagat Singh Road, Alwar, Rajasthan-301001 laipur Kalwar Road Branch Office: Sh.No. 31,32,33 at Plot no.73 &74, Patel Nagar, Govindpura, Kalwar Road, Jaipur-30201;

Jaipur Branch Office: 5th Floor, Sanghi Upasana Tower, C - 98, Subhash Marg, C - Scheme, Jaipur - 302001 (Rajasthar

POSSESSION NOTICE Appendix IV (for immovable property)

hereas, the undersigned being the Authorized Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) under the Securitisatioin an-Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of Power conferred under section 13(12 ead with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice (s) Issued by the Authorised officer of the company to the prrower(s)/Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in th notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/ Guarantor(s) and the public in gener nat the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub Section(4) of the Section 13 of the said Act said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower ention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Ti prower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will b subject to the charge of AHFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon

S. N			Demand Notice Date and Amount	
1.	(Loan Code 06600000261 Alwar Branch), Bijendra Kumar (Borrower) , Punam Devi (Co-Borrower 1) , Azharuddin Moh (Guarantor1)	1 Sed Mata Temple Ke Pas Daroga Mohalla Tehsil Ramgarh Alwar, Alwar, Rajasthan, 301026 Bounded by: East: House of Radheshyam, West: Road, North: House of Ramdayal Balai South: House of Pachayaram	Rs.	5-Sep-23
2.	(Loan Code 34610000549 Jaipur Kalwar Road Branch), Rajendra Jangid (Borrower), Shubham Jangid (Co-Borrower 1), Ranjana Sangwal (Co-Borrower 2)	Plot No. 62 In Scheme-Diwan Nagar-8Th, Khora Bisal, Jaipur Jaipur Rajasthan 302013 , Jaipur, Rajasthan, 302013 . Bounded by: East: Road, West: Plot No. 33, 34, North: Plot No. 61 South: Plot No. 63	16-Jun-23 Rs. 1051897/-	4-Sep-23
3.	(Loan Code 04400002696 Jaipur Branch), Mukesh Gurjar (Borrower), Suman Devi (Co-Borrower 1), Jagram Gurjar (Guarantor)	Patta No 10 Misal No 40 Patta No 10 Misal No 40 Jaupada Dausa Dausa , Dausa, Rajasthan, 303511 Bounded by: East: Property Of Bhim Singh, West: Property Of Hanuman, North: Public Way South: Property Of Banshi Lal	Re	5-Sep-23

Place: Alwar & Jaipur; Date: 08.09.2023

Authorised Office Aadhar Housing Finance Limited

Aadhar

equitas

Gurjant Singh

BRANCH - Jalore

Devi Vachana Ram

0 BRANCH - Kotputli

Date - 08.09.2023

Place - Raiasthan

BRANCH - Sri Ganganagar

Loan No- SESGGNR0241733

Loan No- SEKOTPT0172695

BORROWER - MR.HANSRAI

GUARANTOR NAME - MRS.MALI

KUMARI, MR.GUGAN, MRS.KAMALI

BORROWER - MR.GULAB CHAND

GUARANTOR NAME - MR.NATTHU

Loan No- SEJALOR0189781

BORROWER - Mr. Vachana Vaga Ra

GUARANTOR NAME - Mrs.Pasati

231792

Equitas Small Finance Bank Ltd (FORMERLY KNOWN AS EQUITAS FINANCE LTD)

Registered Office: No.769, Spencer Plaza, 4th Floor, Phase-II, Anna Salai, Chennai - 600002. DEMAND NOTICE - NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

OTICE is hereby given that the following borrower/s have availed loan from Equitas Housing Finance Limited (EHFL) / Equitas Finance Limited (EFL Equitas Small Finance Bank Ltd (ESFB). The said borrower/s had/have failed to pay Installments and their loan account has been classified as No

erforming Asset as per the guidelines issued by RBI. The details of the secured immovable propert/ties, loan and the amounts outstanding as oi late payable by the borrower/s are mentioned below. The borrower(s) and the public in general are informed that the undersigned being th zed Officer, the secured creditor has initiated action against the following borrower(s) under the provisions of the SARFAESI Act, 2002 and no

SR NO	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)(NAME OF THE BRANCH)	13(2) Notice Date Claim Amount	Description of Secured Asset (Immovable Property)
1	BRANCH - Chittorgarh Loan No- SECITOR0183858 BORROWER - Mr.Firoj Sadik Khan GUARANTOR NAME - Mr.Sadik Abbas Khan, Mrs.Shakila Sadik Khan Begam		All that pieces and parcels of non-agriculture property being residential property having situated at Mr.Resides at House No.41, Near Hanuman Mandir, Sawe Village, Sawa Grampanchayat, Chittorgarh Panchayat Samiti, Chittogarh District (Rajasthan) admeasuring area 475 Sq.ft., with all present and future superstructure theron and bounded on the; North by: Road; South by: Sajjad / Abbas Khan; Easi by: Chotu / Sarif Khan; West by: Join Road; Measurement: 475 Sq.ft., under Loar Agreement-cum-Mortgage of the property situated at within the Sub-Registration District Chittorgarh (Rajasthan).
2	BRANCH - Bundi Loan No- EMFBUNDI0010104 BORROWER-Mr.Foru Amba Lal GUARANTOR NAME - Mrs.Kolesh Foru Lal	02-05-2023 & 247097	All that pieces and parcel of non-agriculture property being residential property having situated at Resides at House No.42, Rawaka Chowk, Khodhi Village Sanwantgarh Grampanchayat, Hindoli Tehsil, Bundi District (Rajasthan admeasuring area 400 Sq.ft., with all present and future superstructure theron and bounded on the; North by: Property of Ramfool Meena; South by: Tulsiram S/o Sohan; Fast by: Babu S/o. Pokhar Meena; West by: Common Way; Measuremen: 400 Sq.ft., under Loan Agreement-cum-Mortgage of the property situated at within the Sub-Registration District Hindoli and Registration District of Bundi (Rajasthan).
3	BRANCH - Nimbahera Loan No- SENMBHR0177855 BORROWER - Mr.Nand Kishor Shambu Lal Menariya GUARANTOR NAME - Mr.Jivan Prakash Shambu Lal Menariya, Mrs.Paru Bai Jivan Prakash Menariya	02-05-2023 & 290481	All that pieces and parcels of non-agriculture property being residential property having situated at R/o Plot No.C1, & at Bora Kheri Village, Nimbahera Tehsil Chittorgarh District (Raj), admeasuring area 2000 Sq.ft., with all present and future superstructure theron and bounded on the; North by: Road 30 Feet; South by: Plo No.C2; East by: Road 30 Feet; West by: Road 30 Feet; Measurement: 2000 Sq.ft. under Loan Agreement-cum-Mortgage of the property situated at within the Sub Registration District Nimbahera and Registration District of Chittorgarh (Rajasthan).
4	BRANCH - Baran Loan No- SEBARAN0192623 BORROWER - Mr.Rajendra Badri Lal GUARANTOR NAME - Mrs.Ashok Rajendra Lal Bai	02-05-2023 & 228530	All that pieces and parcels of non-agriculture property being residential property having R/o Resides at, at Khasra No.340, House No.68, Hikad Village, Patheda Grampanchayat, Baran Panchayat Samiti, Baran Tehsil, Baran District (Rajasthan) admeasuring area 600 Sq.ft., with all present and future superstructure theron and bounded on the; North by : House of Hemraj Ji; South by : Agriculture Land of Keshrilal Khati; East by : House of Babulal Meghwal; West by : Bada of Ranveel Suman; Measurement : 600 Sq.ft., under Loan Agreement-cum-Mortgage of the property situated at within the Sub-Registration District Baran and Registration District of Baran (Rajasthan).
5	BRANCH - Bundi Loan No- SEBUND10146589 BORROWER - Mr.Tej Mal Bhanwar Lal Saini GUARANTOR NAME - Mrs.Manbhar Bai Tej Mal Lal Saini, Mr.Nand Kishor Tej Mal Lal Saini, Mr.Sanjay Tej Mal Lal Saini	02-05-2023 & 311785	All the piece and parcel of land and building Comprised in, with an extent of 280 Sq.ft., situated at House No.862, Gothra Majra Deri Ka Barda, Bundi Ka Gothra Grampanchayat, Hindoli Tehsil, Bundi District (Rajasthan) with all present and future superstructure theron and bounded on the; North by: Government Land South by: Shojeelal Ka Makan; East by: Premchand Ji Ka Makan; West by: Neha Ka Dhura; Measurement: 2800 Sq.ft., under Loan Agreement-cum-Mortgage of the propertisituated at within the Sub-Registration District of Bundi (Rajasthan).
6	BRANCH - Sri Ganganagar Loan No- SESGGNR0198130 BORROWER - Mr.Bhagirath Dhanaram GUARANTOR NAME - Mrs.Kamla Bhagirath, Mr.Sandeep Bhagirath Dhanaram, Mrs.Suman Sandeep Bhagirath Dhanaram	02-05-2023 & 311588	All that pieces and parcel of non-agriculture property being residential property having Patta No.36, situated at 45 LLW Village, Padampur Tehsil, Sri Ganganaga District, Admeasuring 1190 Sq.ft., with all present and future superstructure theror and bounded on the; North by: Brij Lal Kumhar; South by: Road; East by: Road West by: Gopiram; Measurement : 1190 Sq.ft., under Loan Agreement-cum Mortgage of the property situated at within the Sub-Registration Distric Sriganganagar and Registration District of Sriganganagar.
7	BRANCH - Sri Ganganagar Loan No- SESGGNR0180372 BORROWER - Mr.Gurjant Dayal Singh	02-05-2023 & 296499	All that pieces and parcels of non-agriculture property being residential Plot, having Patta No.53, Measuring 110' Ft., X 21 Ft., i.e., 2640 Sq.fts., i.e., 293.33 Sq.Yards. situated at Bhagsar Village, Sadulshahar Tehsil, Sri Ganganagar District, with al present and future superstructure theron and bounded on the; North by Yacant Land; South by Bikar Singh House; East by: Vacant Land; West by

Road; Measurement: 2640 Sq.ft., (293.33 Sq.Yards). under Loan Agreement-cum

Mortgage of the property situated at within the Sub-Registration District

No.35, situated at Mudi Village, Residential Scheme, Jalore Tehsil, Jalore District,

Rajasthan, admeasuring 585.875 Sq.ft., with all present and future superstructure

theron and bounded on the; North by: Common Way; South by: Khetaram S/o

Vagaji Prajapat; East by : Kanaram S/o Vagaji Prajapat; West by : Piyari Devi W/o

Udaram Prajapat: Measurement: 585,875 Sq.fts., under Loan Agreement-cum-

Mortgage of the property situated at within the Sub-Registration District Jalore and

Situated at Village Takhranwali Tehsil Sadulshahar District Sri Ganganagar

Measuring 33'X56' Feet @ 1792 Sq fts. With all present and future superstructure

East:- Road, West:- House of Nathu Ram Admeasuring Area: 1792 Sq. Ft. Situated

at within the Sub-Registration District of Sub-Registration District of Lalagarh and

situated at - Gram - Chiman Pura, Gram Panchayat - Chiman Pura, Tehsil - Kotput

Dist. Jaipur (Rajasthan), admeasuring area 194 Sq. Yard. With all present and future

superstructure thereon. Four corners of the Said Property:- North by : House o

Rameshwer South by : CC Road East by : CC Road West by : House of Bhihari

Measurement: 194 Sq. Yard Situated at within the Sub-Registration District of

Equitas Small Finance Bank Ltd

ereon. Four corners of the Said Property:- North :- Road South:- House of Imi La

Sadulshahar and Registration District of Sri Ganganagar.

02-05-2023 All that pieces and parcels of non-agriculture residential property having Patta

04-08-2023 All that pieces and parcels of non-agriculture property being Residential Plo

07-08-2023 All that pieces and parcels of non-agriculture property being Residental Proper

Registration District of Sri Ganganagai

Kotputli and Registration District of jaipur.

HDFC Bank Ltd. - HDFC BANK

Branch: C-25, Bhagwant Das Road, Opp. St. Xaviers School, C-Scheme, Jaipu We understand your world Regd. Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE Whereas the Authorised Officer of HDFC Bank Limited (erstwhile HDFC Limited having amalgamated with HDFC Bank Limited by virtue of a Scheme of Amalgamation approved by Hon'ble NCLT-Mumbai vide order dated 17th March 2023) (HDFC), under the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("said Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the following borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) to pay the amounts mentioned against their respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices, within 60 days from the date of of the said Notice/s, incidental expenses, losts, charges etc till the date of payment and / or realisation.

No		Dues	Demand Notice	Date of Possession	Description of Immovable Property(ies)/ Secured Asset (s)
1.	MR. NIRAJ YADAV S/O MR. RAJA RAM YADAV A/c Nos: 647431275, 646787337	Rs. 44,52,735/- as on 31-Jan-2023*	21-FEB-23	02-SEP, 2023	UNIT / FLAT NO 802, 8th FLOOR, BLOCK- / AASHIRWAD GOKUL, PLOT NO 7, KARNESHWA GROUP HOUSING SCHEME, NEAR SUBHAS NAGAR, KOTA (RAJASTHAN); ADMEASURING ARE ABOUT: 1357 Sq. Ft. Or 126.06 Sq. Mtr. (Total Area)

with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and/or realisation.

However, since the borrower/s / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove have failed to repay the amounts due, notice is lereby given to the borrower/s / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the Authorised Officer/s of HDFC have taken symbolic possession of the immovable property (ies) / secured asset(s) described hereinabove in exercise of powers conferred on him/them under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned above.

e borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and the public in general are hereby cautioned n o deal with the aforesaid Immovable Property(ies) / Secured Asset(s) and any dealings with the said Immovable Property (ies) / Secured Asset(s) and any dealings with the said Immovable Property (ies) / Secured Asset(s) will be subject to the mortgage of HDFC. Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) attention is/are invited to the provisions of subsection (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset/s. Copies of the Pnachamma drawn and Inventory made are available with the undersigned, and the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) is / are requested to collect the respective popy from the undersigned on any working day during normal office hours.

Sd/
Authorised Officer Place: Kota Date: 07/Sep/23 For HDFC Bank Ltd

POONAWALLA HOUSING FINANCE

POONAWALLA HOUSING FINANCE LIMITED (FORMERLY KNOWN ASMAGMA HOUSING FINANCE LTD.) REGD.OFFICE:602, 6TH FLOOR, ZERO ONE IT PARK, SR. NO. 79/1, GHORPADI, MUNDHWA ROAD, PUNE 411036

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

fou the below mentioned Borrowers/ Co-borrowers /Guarantors have availed Home loans/Loans against Property facility (ies) by nortgaging your Immovable property/ies from Magma Housing Finance Ltd "MHFL" now renamed as Poonawalla Housing Finance Ltd "PHFL". You defaulted in repayment and therefore, your loan/s was classified as Non-Performing Assets. A Demand Notice unde Section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 for the recovery of the outstanding dues sent on last known addresses however the same have returned un-served. Hence the contents of which are peing published herewith as per Section 13(2) of the Act read with Rule 3(1) of The Security Interest (Enforcement) Rules. 2002 as and by way of Alternate Service upon you.

Details of the Borrowers, Co-borrowers, Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notice sent under Section 13(2) and

Ar	Amount claimed there under are given as under					
SR		DETAILS OF THE SECURED ASSET	DEMAND NOTICE DATE	I AMOUNT DUE IN RS.		
1.	LALITA DEVI, NEELAM SAINI, VINOD SAINI, NARBADA SAINI, BHAGYASHREE SAINI LOAN AMOUNT: RS.2000000/- LOAN NO:HF/0060/H/21/100090	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF KH NO 1111,1114, UNIT AREA 2500 SQ.FT., DANSYAN KA BASS RAJGARH TAN KAROTH TEHSIL RAJGARH DIST ALWAR RAJASTHAN PIN-301408 BOUNDED BY:- EAST: - ROAD 10 WIDE WEST:- AGRI LAND SELF NORTH:- ROAD 12 FT WIDE SOUTH:- SELF OPEN PLOT	27.08.2023	RS.2229803/- (RUPEES TWENTY TWO LACS TWENTY NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED THREE ONLY)TOGETHER WITH FURTHER INTEREST @ 19.00%P.A TILL REPAYMENT.		

fou the Borrower/s and Co-Borrower/s/Guarantors are therefore called upon to make payment of the above mentioned demanded amount with further interest as mentioned hereinabove in full within 60 Days of this Notice failing which the undersigned shall be constrained to take action under the act to enforce the above mentioned security/ies. Please Note that as per Section 13(13) of The Said Act, You are in the meanwhile restrained from transferring the above-referred securities by way of sale, lease or otherwise without ou consent.

FOR POONAWALLA HOUSING FINANCE LTD (FORMERLY KNOWN AS MAGMA HOUSING FINANCE LTD) PLACE: ALWAR, RAJASTHAN DATE: 08.09.2023 **AUTHORIZED OFFICE**

CAREER POINT LIMITED

Registered Office: Village Tangori, Banur, Mohali, Punjab-140601 Corporate Office: CP Tower 1, Road No. 1, IPIA, Kota, Raiasthan-324005 CIN: L80100PB2000PLC054497. Phone: 080-47250011, 90575-32030 Website: www.cpil.in, E-mail: investors@cpil.in

NOTICE is hereby given that the 23rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Career Point Limited will be held on Thursday, September 28, 2023 at 4:00 p.m. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses, as set out in the Notice convening AGM. The Company has sent the Annual Report along with the Notice convening AGM on September 06, 2023 through electronic mode to the Members whose email addresses are registered with DP/RTA in accordance with the Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs vide Circular dated December 28, 2022 read together with Circular dated January 13, circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 ("MCA Circulars"), and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circular no. SEBI/HO/CFD/PoD /CIR/P/2023/04 dated January 05, 2023, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/ HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 read together with its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1 /CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 ("SEBI Circular"). The Annual Report along with the Notice convening the AGM available on the website of the Company at https://bit.ly/CPL-AR-2022-23 and on RTA's website i.e. www.ankitonline.com. Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") and the applicable rules framed thereunder the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 22, 2023 to Thursday, September 28, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 23rd AGM of the Company. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening the AGM using electronic voting system ("e-voting") provided by NSDL at www.evoting.nsdl.com. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, September 21, 2023 ("cut-off date"). The remote e-voting period commences on 9.00 am on Monday 25th September, 2023 and ends at 5.00 pm on Wednesday 27th September, 2023. During this period, the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again. In case shareholders/members have any queries regarding e-voting, they may refer the helpdesk of NSDL under help section or send an email to helpdesk for any technical issues red to login through Depository i.e. NSDL&CDSL at evoting@psdl co.in or call at toll free no. 1800 1020990 and 180022 4430 and helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 022-23058542-43 respectively. The shareholders can also reach to company regarding any queries at investors@cpil.in

> For Career Point Limited Manmohan Pareek

Place: Mohali (Punjab) Date: 07th September 2023 Company Secretary & Compliance Officer ICSI Membership No. A34858

DHABRIYA POLYWOOD LIMITED Regd. Office: B-9 D (1), Malviya Industrial Area, Jaipur-302017 Rajasthan, India

Tel No.: 0141-4057171, Fax No.: 0141-2750814 E-mail: cs@polywood.org, Website: www.polywood.org

CIN: L29305RJ1992PLC007003

NOTICE OF THIRTY-FIRST ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the thirty-first (31st) Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Saturday, 30th September, 2023 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 05, 2020, No. 22/2020 dated June 15, 2020, No. 33/2020 dated September 28, 2020, No. 39/2020 dated December 31, 2020, No. 10/2021 dated June 23, 2021, No. 20/2021 dated December 08, 2021, No. 03/2022 date-May 05, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular(s)") SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.

The electronic copies of the Notice of the 31st AGM, Annual Report for the F.Y. 2022-23 including the Audited Financial Statement for the Financial year ended on 31st March 2023 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The dispatch of Notice of the AGM and the Annual Report for FY 2022-23 has been completed o 08th September 2023. The above documents are also available on the Company's website i.e. www.polywood.org, website of the BSE Limited i.e. www.bseindia.com and website of the Central Depository Services (India) Limited i.e. www.evotingindia.com.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listin Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company wil remain closed from Monday, September 25, 2023 to Saturday, September 30, 2023. (both days inclusive) for payment of Final Dividend and Annual General Meeting. The Final Dividend as recommended by the Board, if declared at the AGM, will be paid to those shareholders whose name is recorded in the Register of Members(s)/Beneficial Owner(s) maintained by the Depositories as or Saturday, 23rd September 2023.

To avoid delay in receiving dividend directly in the bank account Member(s) are requested to update their bank details and KYC with neir respective DP, where shares are held in dematerialized mode.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, the Company is offering remote e-voting facility for its Members enabling them to cast their vote electronically in espect of the business to be transacted at the AGMof the Company. The Company has appointed Central Depository Services (India) imited (CDSL) to provide e-voting facility.

he remote e-voting will commence from 09:00 A.M. on Wednesday, September 27, 2023, and ends on 05:00 P.M. on Friday September 29, 2023. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **September 23, 2023.** The detailed instructions for remote e-voting process are nentioned at Note No. 24 of the Notice of AGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person who has acquired the shares and has become a member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM an prior to the Cut-off date, shall be entitled to exercise his/her vote either electronically i.e. remote e-voting or e-voting system on the date of the AGM by following the process mentioned in the Notice of the AGM.

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available a www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800 22 55 33 or ontact Mr. Sparsh Jain, Company Secretary of the Company at B-9D(1), Malviya Industrial Area, Jaipur - 302017 (Raj.) Tel: 0141-4057171 and email <u>cs@polywood.org</u>.

CS Manish Sancheti, Practicing Company Secretary, (FCS 7972, CP 8997) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize th e-voting in a fair and transparent manner. The results of the remote e-voting and e-voting at the AGM will be declared on or before Tuesday, 03rd October 2023. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website a www.polywood.org and on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com for information of the Members besides being nunicated to the Stock Exchange i.e. BSE Limited where the Company's shares are listed. For Dhabriya Polywood Limited

Place : Jaipur Authorized officer Date: 08.09.2023



1 ाप्रनिम /क्षैका किश / पीयूबी-348/ पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री श्योजी राम जाट पुत्र श्री घासी राम जाट, खनन पटटा संख्या 25

20	2020 ग्राम काचारया द्वारा ग्रनाइट खानज क्लस्टर खेनन पारयोजना जिसका विस्तृतीववरण निम्न प्रकार स है:-						
क. सं.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	ज्र्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.ए	
1.	श्री श्योजी राम जाट पुत्र श्री घासी राम जाट, खसरा संख्या 363/60	25/2020	1.3467	काचरिया	ग्रेनाईट	139999	
2.	श्री श्योजी राम जाट	24/2020	1.9697	काचरिया	ग्रेनाईट	213864	
3.	श्री साहिल सोनी	23/2020	1.3683	काचरिया	ग्रेनाईट	195048	
4.	श्री अखिल सारदा	27/2019	1.3359	काचरिया	ग्रेनाईट	103936	
5.	श्री योगेश कुमार अग्रवाल	59/2018	1.0004	काचरिया	ग्रेनाईट	215728	
6.	श्री मयंक बाघमार	25/2019	1.1220	काचरिया	ग्रेनाईट	-	
7.	श्रीमती इन्द्रा देवी महनोत	02/2018	1.0	काचरिया	ग्रेनाईट	117236	
8.	श्री दीना राम डूडी	56/2018	1.5215	काचरिया	ग्रेनाईट	236342	
9.	श्री भूरा राम	51/2018	1.0	काचरिया	ग्रेनाईट	250000	
10.	श्री तुलसा राम	54/2018	1.0	काचरिया	ग्रेनाईट	206002	
11.	श्री दीना राम डूडी	55/2018	1.0201	काचरिया	ग्रेनाईट	200000	
12.	श्री दीना राम डूडी	53/2018	1.0114	काचरिया	ग्रेनाईट	200000	


कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 14.696 हैक्टेयर कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-2078155 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम काचरिया तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पर्व आवश्यक समृह खन्त nakiei iकशनगढ़, जिला अजमर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक्ष साथुर्य परियोजना लोक सुनवाई हेतू प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित को प्रस्ता किया गया है ।

को प्रस्तुत किया गया है। 2. और बुक्ति श्री प्रयोगी राम जाट पुत्र श्री घासी राम जाट, खनन पटटा संख्या 25./ 2020 ग्राम काचरिया ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समृह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, गई दिल्ली हारा जारी ई.आई.ए. अधिसुचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समृह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है। 1 अक्त समृह खनन परियोजना से सम्बन्धित समृह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अबलाकेनार्य उपलब्ध है।

अवतानात्रभाव उपलब्ध है। तिला कलकट पूर्व जिला मंजिस्ट्रेट, अजमेर। 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। . सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04 संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। . क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशानगढ़, जिला-अजमेर। . तहसील-किशानगढ़, जिला-अजसेर। 6. राजीवा गांधी संचा केंद्र, सिलारोत रहसील किशानगढ़, जिला अजमेर। तत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमोक कअ /सामान्य/ 2023/14310

अतः सबसाधारण को कावालय जला कलकरर एवा जला माजस्ट्र, अजमर क पत्र क्रमाक कअ /सामन्य/ 2023/1431। दिनांक 01.09.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्विकृति से संबंधित जन सुनवाई हेत् दिनांक 09.10.2023 को दोपहर: 02:00 बजे, स्थान- राजीब गांधी सेवा केन्द्र सिलोरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में उपस्थित होकर अ<u>पने</u> लिखित / मौखिक आक्षेप/ सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप ⁄सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।

् दीपक तँवर) पर्यावरणीय अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी



▲ 常匠 एसपीएल-2, पंचम चरण रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर) राप्रीनम /क्षेका किश / पीयूबी-347/ पर्यावरणीय स्वीकृति समृह खनन परियोजना हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री साहिल सोनी पुत्र श्री सुनिल कुमार सोनी सह खातेदार श्री दीपक सोनी पुत्र श्री गोपाल सोनी, खनन पटटा संख्या 23/2020 ग्राम काचरिया द्वारा ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत

	रण निम्न प्रकार सेहै:-				खनिज	
क.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा	क्षेत्रफल	ग्राम		ज्रपादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम
सं.	श्री साहिल सोनी पुत्र श्री सूनिल कुमार सोनी	संख्या	हैक्टेयर में		का नाम	टापाए (आर.आ.एम
1.	सह खातेदार श्री दीपक सोनी पुत्र श्री गोपाल सोनी, खसरा संख्या 322/41	23/2020	1.3683	काचरिया	ग्रेनाईट	195048
2.	श्री श्योजी राम जाट	24/2020	1.9697	काचरिया	ग्रेनाईट	213864
3.	श्री अखिल सारदा	27/2019	1.3359	काचरिया	ग्रेनाईट	103936
4.	श्री योगेश कुमार अग्रवाल	59/2018	1.0004	काचरिया	ग्रेनाईट	215728
5.	श्री श्योजी राम जाट	25/2020	1.3467	काचरिया	ग्रेनाईट	139999
6.	श्री मयंक बाघमार	25/2019	1.1220	काचरिया	ग्रेनाईट	-
7.	श्रीमती इन्द्रा देवी महनोत	02/2018	1.0	काचरिया	ग्रेनाईट	117236
8.	श्री दीना राम डूडी	56/2018	1.5215	काचरिया	ग्रेनाईट	236342
9.	श्री भूरा राम	51/2018	1.0	काचरिया	ग्रेनाईट	250000
10.	श्री तुलसा राम	54/2018	1.0	काचरिया	ग्रेनाईट	206002
11.	श्री दीना राम डूडी	55/2018	1.0201	काचरिया	ग्रेनाईट	200000
12.	श्री दीना राम डूडी	53/2018	1.0114	काचरिया	ग्रेनाईट	200000
_			•			

ल क्लस्टर क्षेत्रफल 14.696 हैक्टेयर कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-2078155 टीपीए (आर.ओ.एम.) ग्राम काचरिया, सील किशनगढ़, जिला अजमेर से संबन्धित ग्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवरयक समृह खनन (योजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल(यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिनिलिखत) प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रसाव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है ।

2. और बृंकि श्री साहिल सांनी पुत्र श्री सुनिल कुमार सांनी सह खातंदार श्री दीगक सांनी पुत्र श्री गोणल सांनी, खनन पटटा संख्या 23/2020 ग्राम काचरिया ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को आवंदन प्रस्तुत किया है । उक्त परियोजना हैतु वन पयंत्रण एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, गई दिल्ली ह्या जारी ई.आई.ए. अधिसुचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14. 09,2006 और एस. औ. 11533 दिनांक 14. 09,3006 और एस. औ. 11533 दिनांक 14. 09,3006 और एस. और 11533 दिनांक 14. 09,3006 से एस. अंतर्ति होता है प्रस्तुत सुनित होता है । तीत सुनित होता होता है । तीत सुनित होता है । तीत सुनित होता होता है । तीत सुनित होता होता है । तीत सुनित होता होता है जिल्ला होता होता है । तीत सुनित होता होता है अत सुनित होता होता है अत सुनित होता होता है अत सुनित होता होता है कहा सुनित होता होता है कहा सुनित होता वाला है कहा सुनित होता है । तीत है कि सुनित होता है ने सुनित होता वाला है कहा सुनित होता वाला है कहा सुनित होता वाला है कहा सुनित होता है होता है । तीत होता है कहा सुनित होता है वाला है कहा सुनित होता वाला है कहा सुनित होता वाला है कहा सुनित होता है होता है । तीत है । तीत सुनित होता है होता है । तीत होता है होता है होता है होता है । तीत होता है होता है होता है । तीत होता है होता है होता है होता है । तीत होता है होता है होता है होता है । तीत है होता है होता है होता है

Regional Office Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi. E-mail: rorpcb.bu ा.प्र.नि.म/क्षे.का.बुन्दी/जनसुनवाई/पी.य्.बी-333/965

4-11-1 (1.31.1.1-1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11						
पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना						
1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र चौधरीs/o श्री रामप्रसाद चौधरी, प्लाट नम्बर-13, ग्राम- हिसामपुर द्वारा						
ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:- क्षेत्रफल खनिज उत्पादन						
⊕'रूं	प्रोजेक्ट का नाम	रेफरेंस संख्या	ग्राम	हैक्टेयर में	का नाम	टी.पी.ए. (रोम)
1	श्री जितेन्द्र चौधरी s/o	Delineated	हिसामपुर	1.6645	ग्रेनाईट	200088
	श्री राम प्रसाद चौधरी (LOI)	Plot no. 13				
2	श्री सुनिल कुमार s/o	Plot No. 12	हिसामपुर	1.4672	ग्रेनाईट	78443.75
	श्री नाथूलाल सेवकर्मानी			1.4072	и печ	70443.73
3	श्री सौरभ जैन s/o श्री विमल कुमार जैन	2019100009941	हिसामपुर	1.5913	ग्रेनाईट	209698
4	श्री रामप्रसाद कुमावत s/o श्री भोलुराम	20191000013377	हिसामपुर	1.0728	ग्रेनाईट	142532
5	श्रीमती किरन जैन w/o श्री विमल कुमार जैन	20201000030935	हिसामपुर	1.5258	ग्रेनाईट	110000
6	मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाईट	20201000030815	हिसामपुर	1.0125	ग्रेनाईट	107856
7	श्री रामजीवन s/o खेमचन्द	20211000031973	हिसामपुर	1.3255	ग्रेनाईट	152544
8	मैसर्स जैन ग्रेनाईट माईन्स	20211000038924	हिसामपुर	1.0387	ग्रेनाईट	108606
9	मैसर्स राजाजी ग्रेनाइट	20211000042082	हिसामपुर	2.1351	ग्रेनाईट	235200

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 12.8334 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 1344967.75 टीपीए (रोम) ग्राम- हिसामपुर हमील-देवली. जिला-रोक से संबन्धित पार्थना-पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकत से पर्व आवश्यक समह खनन रियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) . और चंकि श्री जितेन्द्र चौधरी s/o श्री रामप्रसाद चौधरी, प्लाट नम्बर-13, ग्राम हिसामपुर ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण

मण्डल, को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सूनवाई हेतु मण्ड-को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के

अनुसार समृह लोक सुनवाई के तु आवरयक है। उक्त समृह खनन परियोजना से सम्बन्धित समृह ElA/EMPReport एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

जिला कलक्टर, टोंक।

. 1940। करानर-८, ८७०। २. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, प्रशासन सचिवालय, जयपुर। . सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्याकंन समिति, राजस्थान, ०४, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।

२ तर्सन्य कार्यम्, राज्यस्यान्यस्य पुरुषणं काराताः, राज्यस्यान्यस्य स्थिति । ४. संत्रीय कार्यालय् , राजस्थान राज्य प्रदुषणं नियंत्रणं मण्डलं, जिला– यून्दी। ५. राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम– हिसामपुर, तहसील– देवली, जिला– टॉक।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट, टॉक के पत्र क्रमांक न्याय/ पर्यावरण /2023/2075 ा सवसायारण का कांधारण राज्या कलाक्टर एवं आला । गांकस्ट्रन, टाक के पत्र कमाफ न्याय 'स्वायरण' 2012-2015 दिनांक 23.08.2023 के कम में इस आम सूचना के गांध्यम से एतर् द्वारा सूचित किया वार्ता है कि उक्त समूह खना परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.10.2023 को प्रातः 10.45 बजे, स्थान – राजीव गांधी सेवा केन्द्र गाम-हिसामपुर तहसील-देवली. जिला-टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौरिवक आक्षेप/सहााव प्रस्तत कर सकते है ्त्र, अन्। रहतानुद्ग, राज्यान् प्रचार । स्वर न उत्तर का श्वार जे जन्मा स्वार के स्वार स्वार है। इस संबंध में लिखित आक्षेप (मुंबा इस आम सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्याल अस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी को भी दिये जा सकते हैं। (निधि खण्डेलवार

(निधि खण्डेलवाल) पर्या० अभि० एवं क्षेत्रीय अधिकारी

INSOLATION ENERGY LIMITED

CIN-L40104RJ2015PLC048445 Regd. Off.: G-25, City Centre, Sansarchand Road, Near MI Road, Jaipur, Raj-302001 Ph: +91 141 4019103, Email: cs@insolationenergv.in, Web: www.insolationenergv.i

NOTICE OF 8th ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, VOTING & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 8th Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Saturday, 30th September, 2023 at 03:00 P.M through Video Conferencing (VC) Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies

Act, 2013 ('the Act') and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with various General Circular to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.

The Notice convening AGM along with Annual Report of the company has been sent through electronic mode on 07th September, 2023 to all shareholders of the company whose Email Addresses were registered with Company/ Depository Participants. The Copy of Annual Report along with

copy of Notice is also available on the Company's website https://insolationenergy.in/wp-content/uploads/2023/09/Annual-Report-2022-23.pdf and on BSE https://www.bseindia.com//,.The Board of Directors has appointed M/s Manisha Godara and Associates, Practicing Company Secretaries, New Delhi as the scrutinizer for the conduct of the voting process in a fair and transparent manner. Pursuant to Section 91 of the Companies Act. 2013 ("Act") read with relevant

rules made there under and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday the 23rd September, 2023 to Saturday, the 30th September, 2023 (both days The Company has fixed the 23rd September 2023 as the Record date/cut-off

date for the purpose of determining members eligible for voting in the ensuing Annual General Meeting. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Saturday, September 23, 2023 may follow the same instructions for remote e-voting and E-voting at the AGM as mentioned in the Notice of AGM. Detailed procedure for obtaining Login ID/User 1D and Password is also provided in the Notice of the AGM Remote The e-voting period begins on at 9.00 a.m. on Tuesday 26th September, 2023 and ends at 5:00 p.m. on Friday 29th September, 2023. The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the

AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the For any grievance/ queries members are requested to contact Miss Ankita

Sen, Company Secretary, of Insolation Eenergy Limited at Registered Office: G-25, City Centre, Sansarchand Road Near Mi Road Jaipur Raj., India. Email: energy.in, Tel: +91 141 4019103 For: Insolation Energy Limited

Date: 07.09.2023 Place: Jaipur (Raj) India

Sd/-Ankita Sen

Company Secretary "IMPORTANT"

copy, it is not possible to verify its contents. The Indiar Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations of result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatever.

Sparsh Jain Company Secretary M. No: 36383

जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित

संदेश न्यूज। कोटा. रक्तवीर युवा टीम डेंगू पीड़ितों की मदद के लिए एसडीपी डोनेशन एवं रक्तदान को लेकर सक्रिय है। रक्तवीर युवा टीम संस्थापक अध्यक्ष अंकित प्रजापति ने बताया कि टीम के सक्रिय सदस्य दिलराज केवट तीरथ के जन्मदिन के अवसर पर अग्रवाल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 31 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर में विक्रम भडाना, सुनील खटाना, पुरुषोत्तम मीणा, नरेश दाधीच, गोविंद मेघवाल, केके बाबा, अंकित सुमन, प्रमोद मीणा, विकाश तारज, अजय केवट, सुरेश गुर्जर, निर्तेश चांदना आदि उपस्थित रहे।

दिल्ली से आएंगे डॉ.

संदेश न्यूज। कोटा. रोटरी क्लब

कोटा राउंड टाउन एवं होप

सोसायटी के संयुक्त तत्वाधान में

10 सितम्बर को होने जा रही

सुसाइड प्रिवेंशन डे मीट के

सन्दर्भ में क्लब अध्यक्ष रो. डा.

रोशनी मिश्रा की अध्यक्षता में एक

बैठक आयोजित की गई। क्लब

सचिव विमल जैन ने जानकारी

देते हुए बताया कि मीट के लिए

संरक्षक डा. एम एल अग्रवाल,

चेयरमैन डा. अरूणा अग्रवाल,

सचिव रामगोपाल अग्रवाल को

बनाया गया। इस सेमिनार में

दिल्ली के डॉक्टर निमेष देसाई

एवं डॉ. एम एल अग्रवाल मुख्य

वक्ता होगे। सेमिनार मे कोंचिंग

सेन्टर, हॉस्टल के पदाधिकारी,

पुलिस, सामाजिक संस्थाओं के

निमेश देसाई

कोटा में पर्यटन रजिस्ट्रेशन का मुख्यालय खोलने की मांग



संदेश न्यूज। कोटा.

विभिन्न औद्योगिक संगठनों की बैठक एक होटल में आयोजित

बैठक में कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी व कोटा स्टोन मार्बल एंड ग्रेनाइट उद्योग संघ के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री के कोटा आगमन पर कोटा को पर्यटन के मानचित्र पर राज्य की प्रमुख पर्यटन नगरी के रूप में पहचान बने, इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा सन 2022 के बजट में होटल, रिसोर्ट मोटल हॉस्पिटल व अन्य व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देकर एक बड़ी सौगात दी थी, रीको को छोड़कर सभी विभागों द्वारा इस पर अमल किया गया। वर्तमान में औद्योगिक मंदी के चलते कई

श्री बजरंग व्यायामशाला में आयोजित होगा क्श्ती दंगल

कोटा. भारत विकास परिषद रानी लक्ष्मी बाई शाखा कोटा-दक्षिण पूर्व हाड़ौती प्रांत के द्वारा प्रांतीय प्रकल्प के तहत गुरू वंदन छात्र अभिनंदन प्रकल्प का आयोजन बजरंग व्यायामशाला महावीर नगर प्रथम में किया जाएगा। श्री बजरंग व्यायामशाला के अध्यक्ष माधाराम चौधरी एवं सचिव व पहलवान रविंद्र कुमार ने बताया कि श्री बजरंग व्यायामशाला महावीर नगर में आयोजित होने वाली कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाडी भाग लेंगे। कार्यक्रम में श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर चुनी गई 10 महिला राष्ट्रीय पहलवानों का सम्मान किया जाएगा, साथ ही पांच अध्यापकों को उनके सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में 10 से 14 वर्ष हाड़ौती बाल किशोरी में 40 से 60 कि.ग्रा. तक, 15 से 17 वर्ष में हाड़ौती बाल केसरी 40 से 50 कि.ग्रा. तक , अंडर-12 वर्ष हाडौती बसंत में 25 से 35 किग्रा तक , अंडर-14 बाल केसरी में 60 से 70 कि.ग्रा. तक, हाड़ौती बाल किशोर 40 से 50 कि.ग्रा., हाड़ौती बसंत 25 से 40 कि.ग्रा.

तक के पहलवान भाग लेंगे। दयोदय एक्सप्रेस में बिना टिकट व अनुचित टिकट के ४१ मामले पकड़े

कोटा. कोटा के मंडल वाणिज्य प्रबंधक किशोर कुमार पटेल एवं चेकिंग स्कवाड स्पेशल टीम के तीन चल टिकट परीक्षक अमित गौड़, मुकेश कुमार एवं सुरेश बैरवा के सहयोग से 7 सितम्बर को कोटा-सवाई माधोपुर खण्ड में गाड़ी संख्या 12181 दयोदय एक्सप्रेस में विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाकर कुल 41 केस जिसमें 7 केस बिना टिकट यात्रा करने वाले मामले एवं 34 केस अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले मामलें शामिल है। जिससे कुल 17,370 रुपए राजस्व

कोटा के आजाद मीणा विश्व युवा कॉन्फ्रेंस में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

अर्जित किया गया।

संदेश न्युज। कोटा. कोटा निवासी आजाद मीणा हॉन्ग कॉन्ग में आयोजित हो रही विश्व युवा कांफ्रेंस 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कर करेंगे। आजाद ने लिखित संवाद में भारत को पूरे विश्व में 65 वे नंबर एवं मौखिक संवाद में चौथे स्थान पर चिन्हित करके अंतराष्ट्रीय प्रवक्ता का शीर्षक हासिल किया है। साथ ही मीणा 21 सितम्बर से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे इंटरनेशनल एग्जिबिशन में भी बतौर अतिथि समिलित होंगे।

उद्योग बंद हो चुके हैं कोटा में रिवर फ्रंट एवं ऑक्सीजोन जैसे विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट जिसका लोकार्पण किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र शहर के मध्य आने से यह आवश्यक हो गया है कि रीको औद्योगिक क्षेत्र के पड़े भुखंडों का भूमि रूपान्तर कर पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उद्यमी विकसित करने को तैयार है, जिससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सके। इसके लिए पर्यटन का मुख्यालय कोटा में ही खोला जाना चाहिए, जिससे पर्यटन लाइसेंस के लिए व अन्य खानापूर्ति के लिए बार-बार जयपुर

बैठक में हाडोती कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष राजेश गुप्ता, कोटा रिजन

नहीं जाना पड़ेगा।

डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मुन्दडा, जनरल इंडस्टरीज सप्लायर्स संघ के अध्यक्ष भगवान न्याती, सचिव महावीर जैन कोटा स्टोन ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बी के गुप्ता, सचिव हरीश प्रजापति ने बताया कि कोटा स्टोन एवं सेंड स्टोन व्यवसाय उद्योग मंदी के चलते इन्हें नई गति देने के लिए राज्य के सभी सरकारी कार्यों एवं भवनों के निर्माण में कोटा स्टोन एवं सेंड स्टोन का उपयोग आवश्यक किया जाना चाहिए।

बैठक में दी एसएसआई एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जम्बु कुमार जैन, विपिन सूद, मुकेश गुप्ता कोटा ट्रांसपोर्ट ओपरेटर संघ के अध्यक्ष मनीष बंसल ने बताया कि रीको में भुखंड स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल किया जाए।

भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह पर निकाली पैदल यात्रा



संदेश न्युज। कोटा. कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पर गुमानपुरा स्थित कांग्रेस कार्यालय शहर एवं देहात कांग्रेस कमेटी ओर से कांग्रेस जनों ने गुमानपुरा में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की मूर्ति तक भारत जोड़ो पैदल यात्रा निकाली। यात्रा के बाद वहीं पर यात्रा की आम

सभा हुई। इस मौके पर शहर अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी ने कहा कि देश की आजादी के बाद किसी भी नेता ने 3750 किलो मीटर की इतनी लंबी यात्रा नहीं की। त्यागी ने कहा कि मोदी सरकार अब इंडिया का नाम बदलने का षडयंत्र कर रही है। कांग्रेस जन कभी भी इनके मंसूबों पर कामयाब नहीं होने देंगे। देहात अध्यक्ष भानूप्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश में आपसी भाईचारा, मोहब्बत बड़ी और नफरत मिटी।

पीसीसी महासचिव अमित धारीवाल ने कहा कि राहुल गांधी

की यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है, किसी न किसी षडयंत्र के तहत कांग्रेस नेताओं को फंसाने के काम कर रही है।

लाडपुरा प्रधान नईमुद्दीन गुडडू ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा ने देश में आपसी भाईचारा बढाने और नफरत को मिटाने का कार्य किया है। इस मौके पर पर्व विधायक पूनम गोयल, पूर्व अध्यक्ष गोविंद शर्मा,अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी. डॉ.जफर मोहम्मद, उपमहापौर पवन मीणा, शोनू कुरैशी, पूर्व उपमहापौर राकेश सोरल, ब्लॉक अध्यक्ष नेवालाल गुर्जर, ललित शर्मा, विष्णु मेवाड़ा, सेवादल अध्यक्ष हंसराज गौस्वामी, देहात ब्लॉक अध्यक्ष पूजा सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष गीता मेघवाल, पर्व उपप्रधान रईस खान, ब्लॉक अध्यक्ष अनूप मेहरा, कमेटी के महासचिव डॉ विजय सोनी, संजय यादव, हिमांशु शर्मा, नगर निगम कोटा उत्तर दक्षिण के पार्षद सहित कांग्रेस जनों ने भाग लिया।

लोक कलाकारों को पहचान पत्र के साथ संगीत नाटक अकादमी देगी नियोजन

संदेश न्यूज। कोटा. मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना में जिले के लोक कलाकारों का पंजीयन कर पहचान कार्ड के माध्यम से लाभ दिलाने के लिए गुरूवार को कलक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराणा, राज्य संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष बिनाका जेश मालू, जिला कलक्टर ओपी बुनकर उपस्थित थे। अकादमी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश के लोक कलाकारों को योजना में पंजीयन करवा कर उन्हें घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि जिले में आयोजित होने वाले सरकारी समारोह, कार्यक्रम,

सामाजिक धार्मिक मेलों, उत्सव में स्थानीय लोक कलाकारों को रोजगार प्रदान किया जाए। उन्होंने बताया कि कलाकार ई-मित्र के माध्यम से राज्य संगीत नाटक अकादमी की वेबसाईट पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रति जनआधार कार्ड एक परिवार को 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कलाकारों को प्रतिदिन 500 रुपए पारिश्रमिक दिया जाएगा। उन्होंने विजन-2030 में मेलों, उत्सव, त्यौहारों के लिए भी आमजन से सुझाव आमंत्रित करने की बात कही। जिला कलक्टर ने दशहरा मेले के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी तथा अन्य मेले, त्यौहारों पर होने

विभागीय स्तर पर आयोजित मेलों, वाले आयोजनों के बारे में बताया। ईथॉस हॉस्पिटल में निश्लक परामर्श शिविर आज

संदेश न्यूज। कोटा. विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के उपलक्ष में ईथॉस हॉस्पिटल कोटा में निशुल्क जांच व परामर्श साप्ताहिक शिविर का आरंभ शुक्रवार को होगा। निदेशक डा. केके कटियाल एवं प्रदीप दाधीच ने बताया कि सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ईथॉस हॉस्पिटल में शिविर का आयोजन होगा। निदेशक सीए अरविंद गोयल एवं जितेन्द्र कुमार गोयल ने बताया कि शिविर में डा. डॉक्टर गर्वित विजय और उनकी टीम सेवाएं देंगे। शिविर नियमित 8से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।

नितिन मेहता ने 19वीं बार डोनेट की एसडीपी



संदेश न्यूज। कोटा. कोटा में डेंगू तेजी से पैर पसार चुका है और अस्पतालों में भारी भींड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में चिकित्सक भी आरडीपी और एसडीपी तेजी से लिख रहे हैं ताकि मरीज को गंभीर अवस्था में जाने से बचाया जा सके। टीम जीवनदाता के संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि एक कोचिंग स्टूडेट आयुष मिश्रा (19) की तबीयत ज्यादा खराब होने और एसडीपी की आवश्यकता होने पर साथी स्टुडेंट ने गुगल से पहले अस्पताल को ढूंढा और उसके बाद गूगल से ही एसडीपी और ब्लड के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों की तलाश कर कॉल किया तो भुवनेश गुप्ता का नाम मिला। उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया गया। स्टूडेंट होने के कारण शीघ्र ही उनकी व्यवस्था के लिए रात को ही प्रयास तेज किए और नितिन मेहता को कॉल कर स्थिति की गंभीरता बताई तो वह शीघ्र ही अपना ब्लड सेंटर तलवंडी पहुंचे और ओ पॉजीटिव एसडीपी डोनेट

गुप्ता ने बताया कि नितिन मेहता ने 19वीं बार एसडीपी डोनेट की। वह 38 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं और कोविड के दौरान उन्होंने सैकडों लोगों की मदद की। वह आठ साल से लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं।

आकाशवाणी क्षेत्र की कॉलोनी के लिए न्यास कार्यालय में विशेष कैंप

संदेश न्यूज। कोटा.

आकाशवाणी क्षेत्र की कॉलोनी के लगाया जा रहा है। न्यास सचिव मानसिंह मीणा ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि पर बसी अनुमोदित कॉलोनियों में पट्टों की राशि में प्रदान की गई छूट एवं शिथिलताओं का लाभ उठाने के लिए आकाशवाणी क्षेत्र में अनुमोदित कॉलोनियों, कृष्णा विहार, सेठी अमृत अम्बापाली नगर, सरस्वती कॉलोनी, ईश्वर लेन, आकाशवाणी कॉलोनी एवं हनुमान वाटिका के भूखण्डधारी पट्टे के लिए आवेदन पत्रावली न्यास कार्यालय में जमा कराएं। ताकि आवेदकों को पट्टे जारी किए जा सके।

कार्यालय अधिशापी अभियन्ता सा. नि. वि. जिला खण्ड इटावा

निविदा सूचना संख्या 08/2023-24

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भवन एवं सदक निर्माण कार्य के लिये उपयुक्त क्षेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / द्वक एवर दूर संचार विभाग / रेल्ने इत्वदि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के एए, ए बी, सी, दी क्षेणी के संविद्यांतें के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु ई-टेपडरिंग के माध्यव से निर्धारित प्रपन्न में प्राप्त की जायेंगी। निविद्य से सम्बन्धित विवरण येव साईट

www.dipronline.org http://www.pwd.rajasthan.gov.in http://eproczajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। निविद्य अपलोड करने की तार्गाम्य ११,०४,२०२३ को ०४-०० कने तक।

UBN No. PWD2324WSOB11562 PWD2324WSOB11563 PWD2324WS0B11564

(पुकेश चन वीत) अधिलामी अभिगन्ता सानियि, जिला खण्ड इटाय DIPR/C/13129/2023

खण्ड ज्ञाहाबाद fittele concessor

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 16 / 2023-24

कार्यालय अधिशापी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,

राजस्थार के राज्याल महोरम की ओर से Construction of CD Work on A/R Govt. College Shahahad रुपयुक्त क्षेत्री में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संविदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवम दूर संचार विभाग / रेल्वे इलादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के एए डेगी के संवेदकों के समकक्ष हो. से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्क्रफेन्ट प्रक्रिया से ऑन लाईन निषिदा आमंत्रित को जाती हैं। निर्मित से सम्बन्धित विकाम पेच सर्वत http://dipr.rajasthan.gov.in च http://pwd.rajasthan.gov.in http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। यू.बी.एन संख्या किम्तानुसार है।

इच्छूक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षा के माध्यम में वेच साईट http://eproc.rajasthan.gov.in प रॉगस्टर्ड होना आपश्यक है।

NIB code :- PWD2324A2722 UBN No.: - PWD2324WSOB11992 DIPR/C/13002/2023

(श्रीतक्षणाः मीमा) अधिकारी अभिक्रम मा.मि.वि. खणा

देशांकः धर सितंबर २०१३)

रोटरी के सेमीनार में विद्यार्थियों अवैध सीसी रोड निर्माण में शामिल वाहन जब्त के डिप्रेशन को लेकर होगी चर्चा

अधिकरीयो

व्यक्तियों के बीच में ग्रुप

डिस्कशन होगा और अपने अपने

सुझाव देगे। वर्तमान में विद्यार्थियों

के जीवन में डिप्रेशन को दूर

करने के बारे में भी सेमीनार मे

चर्चा होगी। सेमीनार में रोटरी

डिस्टिक्ट गवर्नर डॉ. निर्मल

कुणावत, एडीएम राज कुमार

सिंह, डॉ. अशोक गुप्ता, राखी

गुप्ता, प्रधुम्न पाटनी, प्रज्ञा मेहता,

डा. अविनाश बंसल, होटल

एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल

अग्रवाल सहित अनेक सस्थाओं

प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में

अग्निहोत्री, यज्ञदत हाडा नेमीचन्द

शर्मा, महेश अग्निहोत्री, अमित

राज दुबे को सेमीनार की

व्यवस्थाओं की जिम्मेदारीयां दी

जिला संगठन मंत्री नन्द सिंह

सिसोदिया, कोटा महानगर प्रमुख

एडवोकेट रवि विजय, गोपाल

सिंह. औघौगिक क्षेत्र मण्डल

प्रमुख लोकेश खटीक,आरके पुरम

मंडल प्रमुख संदीप, दादाबाड़ी वार्ड

प्रमुख अशोक मोदी, गौरव खटीक,

एडवोकेट शम्भुदयाल कालरा,

कार्तिक, दिनेश मेघवाल, देवा

गुर्जर मौजूद रहे।

अनुपमा

सुरेश काबरा,

गई।

सीएमएचओ की ओर से 11 को होगा कार्यक्रम

संदेश न्यूज। कोटा. सीएमएचओ कार्यालय की ओर से विश्व

आत्महत्या रोकथाम दिवस 11 सितम्बर को मनाया जाएगा। राज्य एवं

जिला स्तर पर विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियां होंगी। आत्महत्या

मुक्त राजस्थान की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

अधिकारी डॉ जगदीश कुमार सोनी ने बताया कि आत्महत्या और

आत्महत्या के प्रयासों को कम करने एवं इसकी रोकथाम के लिए

आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 सितम्बर को

पूरी दुनिया में आत्म हत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 10

को रविवार का अवकाश होने की वजह से यह दिवस 11 सितम्बर

को मनाया जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने इस वर्ष इसकी थीम क्रएटिंग होप

शिवसेना ने उदयनिधि का पुतला जलाया

थ्रु एक्शन (कर्म के द्वारा आशा जगाना) रखी है।

संदेश न्यूज। कोटा. शिवसेना ने

तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि

स्टालिन का पुतला जलाया।

राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर

नागरिकता समाप्त करने के लिए

ज्ञापन दिया। शिव सेना जिला

प्रमुख कोटा गणेश चौबदार, शिव

सेना कोटा महानगर प्रमुख

एडवोकेट रवि विजय ने बताया कि

शिव सेना संगठन कोटा शहर की

ओर से जिला कलेक्टर के बाहर

उदयनिधि उर्फ अस्तनिधि का

पुतला फूंका। इस अवसर पर

संभाग संगठन मंत्री अनूप सोनी,

को स्टालिन की

<mark>कोटा</mark>. वन विभाग की टीम ने वन भिम करणी नगर पर रात्रि के समय चल रहे अवैध सीसी रोड निर्माण कार्य में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। बरड़ा बस्ती में अज्ञात व्यक्ति रात के समय वन भूमि पर सीसी रोड का निर्माण कार्य करा रहे थे। वन्य जीव विभाग की टीम ने कार्यवाही कर सरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर ट्रेक्टर ट्रॉली जब्त की। ट्रॉली में सीसी कंक्रीट भरा हुआ था। सूत्रों के अनुसार यह कार्य बड़े स्तर पर किया जा रहा था, जिसके बारे में जल्द ही खुलासा होने की संभावना है।

आम सुचना

कों साधाण को सुन्तित किया जाता है कि M/S COUTH MINERALS PRIVATE LIMITED Masonry stone Mining project", M.L. No. - 12/2021, Area - 3.1307 Hectore, Proposal No. 432351 Village Kanwada, Tehsil - Jhalragatan, Dist. holawor (Rej.) में राज्य सर्वेय पर्यायरा प्रभाव अवेक्स्सन प्राधिकरण जनपुर राजस्थान द्वार THE THEFT PARTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT Sectt/Project/Cat. B1 (23161) /2021-22 जनपुर, दिनोब 0209.2023 छग र्मान्सम् रनोकृती प्रदान का तो है। उसर आदेत ही प्रति क्लिंग की वेबाएंट www.parivesh.nic.in पर उपस्थव है।

आम सुचना सर्व साधारण को साँचत किया जाता है कि M/S

ECUTH MINERALS PRIVATE LIMITED Masonry stone Mining project", M.L. No. - 13/2021, Area - 3.6010 Hecture, Proposal No. 432697 Village Kanwada, Tehsil - Jhairapatan, Dist. Jhalawar (Raj.) में राज्य रतरीय पर्यावर प्रभाव आंकलन प्राधिकरण जनपुर राजस्वान क्षर TH HIGH F1(4)/SEIAA/SEAC-Rail Sectt/Project/Cat. B1 (23164) /2021-22 Vergr. Fride 02:09:3023 WH पर्याकाण स्वीकती प्रदान कर दी है। तका आदेश की इति विशास की वेसनाईट www.parivesh.nic.in म उपलब्ध है।

आम सूचना

सर्व साधाण को सुचित किया जाता है कि M/S SANJAY JHANWAR WT "Limestone (Dimensional), Limestone Dimensional waste) & Masonry store Mining project", M.L. No. - 03/2021, Ves - 3,9984 Hectare, Proposal No. 433112 Village - Kanwada, Tehsil hairapetan, Dist-Jhalawar (Rej.) 2 एक रत्तीय पर्यापरम प्रधान आंक्सन प्रधिकरण जनस् राजस्कान द्वारा एवं संख्या F1(4)/ SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/Project /Cat. B1 (23205)/2022-23 3497. एकोक 02,00,2023 द्वारा पर्वाचरण एकीकृत प्रदान कर ही है। उक्त आदेश की ब्रति विभाग की व्याहर www.parivesh.nic.in पर

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि M/S (Dimensional). Mining project", M.L. No. - 08/2021, 431991 Villago - Kanwada, Tehsil Jhakagatan, Dist-Jhalawar (Raj.) 2 राज्य रतीय पर्याचरण प्रधान आंक्सन प्रधिकरण जनपर गजनकाम द्वारा पत्र संस्था F1(4)/ SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/Project /Cat. 81 [23145]/2021-22 3999 निवंक 02.09.2023 समा पर्याचाम स्वीकृत प्रदान कर दी है। उक्त आदेश की प्रति विभाग की येवसाईर www.parivesh.nic.in प

कार्यालय अधीक्षण अभिवंता, जन स्वास्थ्य अभिवांत्रिकी विभाग, वृत बंदी (firm secircle bun phed@rajasthan.govin, sephedbundi@gnail.com

(NIB No. PHE2324A3080)

हरकार के राज्यकार महोदान की ओर से पूर खूंचे के अधीन विभिन्न कालों के कार्यक दर अनुबंध हैए त्युक्त केले में पंजीकृत सर्वेदकों से निर्धारित प्रथा में ई-प्रोक्तृतीन्त प्रक्रित्व द्वारा और लाईन निविद्या ार्टील को जाते हैं। विकित से संबंधित कित्तुर किताप केवादौर www.sppp.rajasthan.gov.in, recht fexistr www.shedwatecrajasthan.gov.in 191 www.eproc.rajasthan.

ow.in. or vromas ifis fallered florial 26.08.2025 til 14.09.2025 ava floredi www.eproc.rajasthan.gov.in से राज्याचेंद्र कर अगलेंद्र की जा सकेंचे तथा तकतीकी पिड लॉक 15.09.2023 को दोखर 3:00 खते ऑप लाइंन खोली लातेगी। (पी.स. १९४४) अवीक्षम अभिनेत UBN Code :- PHE2324WSRC07010 तन महरून अभिवृत्तिको जिन्हर

DIPR/C/12978/2023

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, सुल्तानपुर जिला कोटा (राज.)

लोक सूचन

वर्नीवासात पुत्र मारावेद ताति मारात्म निवासी मुरावनपुर तालीत दोवेद जिला ब्रोट में इस ब्रावीता में मी रितरिक्षत भूमि का गिर-पूर्विक प्रयोजन के अवस्थान उपयोग तेष्ट्र ऐसी भूमि के अपने अभिपृत्ति अधिकारों के क्षेत्र के विके अववेदा प्रस्तुत क्रिक है, अर्थक

जिले व्यक्ति स्वामीन कर नार । प्राप्त का नार । प्राप्त पं तिर, उसके समाग बोर्जाचा व्यक्तियों को सुचित मिल जाता है कि चौर किसी व्यक्ति को राजानात कु राज

वीर्याच्या, १८६८ को बार १८-क और राजस्थार अधिवृत्ति व्यविषया, १८६८ को बार ६८ के आधेर पूर्वीक श्रीवर्ग के लिए भूमि के राज्येर हेट्ट अनुस क्टम करने और अधिवृत्ति अधिवर्ग के निर्धानन पर नोर्ट आहेत हैं त्या इस नेटिंग के प्रधानन के 07 दिन बीचा-बीचा किसी बार्ग दिवस का बार्यांत्रण सकत के दीरा दिवस्त्रपुरुवानों के समार स्थान द्वापीओं के प्रधा नाती असीच प्रस्तुत का कीच्या उपर्युक्त विकास समार है रेफ कि किसी की असेन को है और नशुका प्राणिका अधिकारी, स्थाप्तरिका मृत्यासूर उद्देश कार्यक्षी की क्लियी।

आम सुचना

विशासक को मुस्ति किया जाता है कि M/s PURSHOTTAM KANHEYA LAL, 3-H-5, VIGNAN NAGAR, KOTA एक भागीवर धर्म है, जिसका पंजीवन क्रमोक 19/42/89 है। विसमें चार पाणेदार जगरा- सन्दर्भेष्यर धाण्येलवाल, दिनेश खण्डेलवाल, मनोज कुमार खण्डेलवाल एव श्री साल कह है. दिनोक 31,03,2001 से मनोज कमार स्वप्रदेलकर उस्त भगीतारे पर्य का डिस्टब-फिराब पूर्व कर असनी स्वेच्छा से रिटाका हो रहे हैं तथा दिनांक 01,04,3001 से चेतन्त कुमर खण्डेलवास चर्माचर के रूप में चर्मितन हो रहे हैं। दिनांच 31,03,2006 में रिनेज क्षण्डेलात एवं जो ताल कुड़ उका श्वनीदर्श पर्म का क्रिसाथ क्रियाब पूर्व कर स्वयक्त से प्रेटायर्ड हो ते हैं एवं दिनांक 01.04.2006 पुरुषोत्तम कुछ भागोदार के रूप में मर्म्मिलत हो रहे हैं तथा जो लाल बुद का स्वर्गवस 01.10.2006 को हो चुका हैं अतः उका फर्म के सौंक्यन परिवर्गन करने बावन् कर्म जानत को कोई आर्मल हो तो वह 07 दिवस के अन्दर बराबीलय रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् तिला उद्योग एवं व्यक्तिक केल, कोटा ने समर्क की।

पैश्रमं - M/s PURSHOTTAM KANHEYA LAL, 3-H-1, VIGYAN NAGAR, KOTA

CAREER POINT LIMITED

Corporate Office: CP Tower 1, Road No. 1, IPIA, Keta, Rajasthan-324005 CIN: L80100PE2000PLC054497, Phone: 080-47290011, 90575-32080 Website: www.cpil.in. E-mail: investors@cpil.in

एराइयास सुचन वी जाती है कि वॉरियर सेंहट लिमिटेड के सवस्यों की 2.3वीं वर्षिक काम बैठक (एजीएम) नुरुवार, 2.8 सितंबर, 2.6.2.3 को शाम 4:00 करने वैडियो कॉन्फ्रेंस (विसी) अन्य ऑडियो विजुआत मैन्स (श्रीवीएम) के मध्यम से व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए, जैसा कि एजीएम बुलाने की सुबना में निर्धारित किया गया है के लिए आयोजित की जाएगी। कंपनी ने 06 सिरांबर, 2023 को एजीएम बुलाने के नोटिस के साथ वार्षिक रियोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के मध्यम से मेजी है, जिनके ईमेल परो कॉर्वेनेट मामार्स के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार खेपी /आरटीए के साथ पंजीकृत हैं जिनमें 28 विसंबर, 2022, 05 माँ, 2022, 13 जनवरी, 2021,08 ऑफ़्ट, 2020, 13 ऑफ़्ट, 2020 जोर 05 मई, 2020 (एमसीए सर्कुलर), और भारतीय प्रतिभूति और विशेमय बोर्ड (सेबी) के परिनर्ज के साथ पठित इसके परिपत्र संस्था रोबी/एचओ/सीएफसी/सीएफसी2/सीआईआए/पी/2023/04 विनांक 5 जनवरी 2023, परिपन संख्या नेबी/रचजो/सीरफरी/सीरमरी। /सीआईआर/पी/2022/62 विनांक । 3 मर्व 2022, परिपन्न संख्या संबी/एचओ/सी/फडी/सीएमळे2/सीआईआए/पी/2021/11 विगांक 15 जनवरी, 2021, परिपन्न सं-संबी/एकओ/शीएफसे/शीएमसी1/शीजाईआर/पी/2020/79 विलंक 12 मई, 2020 (संबी परिपत्र)। एजीरम बुलाने की सुचना के साथ वर्षिक रिपेर्ट कंपनी की वेबसाइट https://dx.lyCPL.AR-2022-23 पर और उत्पर्देश की वेबसाइट पानी: www.brktonine.com पर वयलका है एलाङ्मारा यह भी सूचना वी जाती है कि क्यनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के प्रावधानी और कंपनी के सबस्बों के रजिस्टर और शेमर ट्रांसफर बुक्स के लहत बनाए गए लागू नियम कंपनी की 2 3वीं एखीएम के प्रयोजन के लिए एवं बीग्य शेवर धारकों को लामांश विराधित करने के लिए शुक्रवार , 2.2 मिलंबर 20.23 से गुरुवार , 20 सिलंबर , 20.23 (पोनों बिन शामित) बंब रहेंगें। अधिनिसम की शारा 1 08 और कंपनी (प्रवंशन और प्रमासन) निधम, 2014 से निमम 20 से प्रावशनों के अनुसार, भरतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धल वादिल और इकटीकरण अवश्यक्ताएँ) विनियम, 2015 के नंशोधित और विनिधम 44 के अनुसार, सदस्वों को www.excling.ned.com पर ए-गएसबीरल हारा उपलब्ध बनाए गए इलेक्ट्रोनिक वेटिंग सिस्टम (ई-वेटिंग) का उपयोग करते हुए एजीएम बुलाने के नोटिस में निर्मातित सभी प्रस्तार्वा पर अपना वोट डालने वर्ष सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों के वेटिंग अधिकार नुरुवार, 21 सितंबर, 2023 (कट-ऑफ तिबि) को कंपनी की चुकता हक्किट सेयर पूजी में उनके द्वारा रखे गए हक्किट सेयरों के भनुभारा में हों। रिभोट ई-वॉर्टिंग की अवधि सोमवार 2.5 सिरांबर, 20.23 को सुबड़ 9 वर्ज शुन्त होती है और शुधवर 27 सिरांबर, 20.23 को प्राम 5:00 वर्ज सनारत होती है। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक स्ता से अपना वेट दाल सकते हैं। इसके बद रिनीट ई-वंटिंग मॉडबूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जो वीसी/ओएकैएम सुक्षिज के माध्यम से एजीएम में जरस्थित हों और रिमोट ई-बेटिंग के मध्यम से संकर्ण पर अपना वोट नहीं खला था और अन्वथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं. वे इस वीचन ई-वेटिंग प्रणाती के माध्यम से मतदान करने से पात्र होने ।चिन सदस्यों ने एडीएन से पहले रिमोट ई-वीटिद्वारा अपना बीट जाला है, वे मी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से बेट अलने के इकबार नहीं होगे: यदि सेयरपारकों /सवस्वी के पाल ई-बंटिंग के राबंध ने कोई प्रभा लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समध्या के लिए सहयदा अनुमान के तहत एनएसबीएल के हेरनवेबक का परलेख कर सकते हैं या विपॉजिटरी गाने एनएसजीएल evolog@ned.co.in या दोल की नंबर 1800 i 020990 और 1800224430 और चीरिएसएल helpteskevoling@odsinda.com पर कॉल करें या क्रमण: 022- 23058738 या 022-23058542-43 को ईमेल मेज सकते हैं और पर संपर्क करें। संघरवारक किसी भी प्रस्न के संबंध में investoration in पर कंपनी से संपर्क कर सकते है।

कॅरिज़र धॉइंट तिमिटेड सीएस मनमोहन पाठेक कंप्नी नविद और अनुपातन अधिकारी सदस्य क्रमांकः A3485B







Name of the Borrower(s)/

Guarantor(s)

(NAME OF THE BRANCH)

Branch: Yamunanagar

L.No: SEYMUNR0360834

Borrower:

Mr. KARTIK TALWAR

Guarantor:

Mrs.ASHA TALWAR

Date: 08.09.2023, Place: Haryana

FINANCIAL EXPRESS

EQUITAS SMALL FINANCE BANK LTD

(FORMERLY KNOWN AS EQUITAS FINANCE LTD)
Registered Office: No.769, Spencer Plaza, 4th Floor, Phase-II, Anna Salai, Chennai, TN - 600 002.

044-42995000, 044-42995050

Description of Secured Asset

(Immovable Property)

All that pieces and parcel of non-agriculture property being Residential Property Measuring 200

sq.yards = 6.61 marla Being 661/16000 share out of total land measuring 8 kanal 0 marla comprised in

khewat no.1535 khatoni no .1745 khasra no.62//13/1,13/2 hadbast no. 279 kitte 2 which is bounded

as per sale deed East -36' Rest part of plot West -36' Gail 20' Wide, North -50' Property of pardeep

kumar, South -50' Rakesh Kumar Situtated at Waka Rakba Moja Bilaspur Hadbast no.279 Tehsil

Bilaspur Distt Yamunanagar vide Sale Deed Bearing Vasika no. 7427 Dated 04-01.2022 registered at

SRO Bilaspur Read with mutation no.14803 and jamabandi for the years of 2017-2018. North by

:House of Pardeep Kumar (50'-0"), South by :House of Rakesh Kumar (50'-0"), East by: Other's

Prop. (36'-0"), West by: Street 20 ft wide (36'-0"). Measurement: 200sq.yards. situated at

Authorized Officer- Equitas Small Finance Bank Ltd

within the Sub-Registration District of Bilaspur and Registration District of Yamunanagar

CAREER POINT LIMITED

Registered Office: Village Tangori, Banur, Mohali, Punjab-140601

Corporate Office: CP Tower 1, Road No. 1, IPIA, Kota, Rajasthan-324005

CIN: L80100PB2000PLC054497, Phone: 080-47250011, 90575-32030

Website: www.cpil.in, E-mail: investors@cpil.in

NOTICE is hereby given that the 23" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Career Point Limited will be

held on Thursday, September 28, 2023 at 4:00 p.m. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means

("DAVM") to transact the businesses, as set out in the Notice convening AGM. The Company has sent the Annual

Report along with the Notice convening AGM on September 06, 2023 through electronic mode to the Members

whose email addresses are registered with DP/RTA in accordance with the Circular issued by the Ministry of Corporate

Affairs vide Circular dated December 28, 2022 read together with Circular dated January 13, circulars dated April 08,

2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 ("MCA Circulars"), and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its

circular no. SEBI/HO/CFD/PoD /CIR/P/2023/04 dated January 05, 2023, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated

May 13, 2022, SEBI/ HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 read together with its circular no.

SEBI/HO/CFD/CMD1 /CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 ("SEBI Circular"). The Annual Report along with the Notice

convening the AGM available on the website of the Company at https://bit.ly/CPL-AR-2022-23 and on RTA's website

i.e. www.ankitonline.com. Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies

Act, 2013 ("Act") and the applicable rules framed thereunder the Register of Members and Share Transfer Books of the

Company will remain closed from Friday, September 22, 2023 to Thursday, September 28, 2023 (both days inclusive)

for the purpose of 23th AGM of the Company. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Securities and

Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are

provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening the AGM using

electronic voting system ("e-voting") provided by NSDL at www.evoting.nsdl.com. The voting rights of Members shall

be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday,

September 21, 2023 ("cut-off date"). The remote e-voting period commences on 9.00 am on Monday 25" September,

2023 and ends at 5.00 pm on Wednesday 27th September, 2023. During this period, the Members may cast their vote

electronically. The remote e-voting module shall be disabled thereafter. Those Members, who shall be present in the

AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are

otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Members

who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through

VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again. In case shareholders/ members have any queries regarding

e-voting, they may refer the helpdesk of NSDL under help section or send an email to helpdesk for any technical issues

related to login through Depository i.e. NSDL & CDSL at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020990 and

180022 4430 and helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 022-23058542-43 respectively.

The shareholders can also reach to company regarding any queries at investors@cpil.in

DEMAND NOTICE - NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

NOTICE is hereby given that the following borrower/s have availed loan from Equitas Housing Finance Limited (EHFL)/Equitas Finance

Limited (EFL)/Equitas Small Finance Bank Ltd (ESFB). The said borrower/s had/have failed to pay Installments and their loan account has

been classified as Non-Performing Asset as per the guidelines issued by RBI. The details of the secured immovable propert/ties, loan and

the amounts outstanding as on date payable by the borrower/s are mentioned below. The borrower(s) and the public in general are informed

that the undersigned being the Authorized Officer, the secured creditor has initiated action against the following borrower(s) under the

provisions of the SARFAESIAct, 2002 and not to deal with the said property. on failure to repay the outstanding dues indicated against their

names within 60 (Sixty) days of this notice, the undersigned will exercise any one or more of the powers under sub-section (4) of Section 13

of the SARFAESI Act, including power to take possession of the property/ies and sell the same.

Notice Date

Claim Amount

05-08-2023

Rs. 3960810/-

Registered Office: village Gholumajra, Near Derabassi, Chandigarh-ambala Road, 25 Km Milestone, National Highway, Derabassi, Mohali, Punjab-140507

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 37" Annual General Meeting of the members

DRUCK GRAFEN INDIA LIMITED

of M/s. Druck Grafen India Limited for the financial year 2022-2023, will be held on Saturday, the 30" day of September, 2023 at 04:30 P.M. at the above mentioned registered office of the company, to transact the business as mentioned in the notice dated 05.09.2023, inter-alia to sell the land and building of the company to M/s Masterline Telebiz Limited, a related party. For Druck Grafen India Limited

Jawahar Lal Nanda Date: 05:09:2023 Place: Derabassi Director Notice to the Shareholders Regarding

Annual General Meeting of Satia Industries Limited Regd. office: VPO: Rupnan ,Malout – Muktsar Road, Sri Muktsar Sahib – (Punjab) 152032, India. Phone: 01633-262215, 263585 Wed site: www.satiagroup.com CIN: - L21012PB1980PLC004329

Notice of 42nd Annual General Meeting E-Voting and Book Closure

. Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting ('Metting) AGM') of the Members of Satia Industries Limited (Company) will be held on Saturday, 30th September, 2023 at 09:00 AM at the Register office of the Company at: VPO: Rupana Malout - Muktsar Road, Sri Muktsar Sahib (Punjab)-152032, India., to transact the Business, as set out in the notice of AGM 2. The electronic copies of the notice of the meeting and the Annual Report for

the Financial Year 2022-23 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The above documents, along with this notice, would also be available on the website of the Company at www.satiagroup.com and on the website of stock exchanges i.e www.bselndia.com & www.nseindia.com. 3. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013

(the Act) read with relevant Rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (the Listing Regulations), the Company is pleased to provide its Members ,facility to exercise their right to vote at the 42nd AGM by electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting') and the business may be transacted through remote e-voting services provided by CDSL. Remote e- voting is optional. Detailed procedure for remote e-voting is also provide in the Notice of the AGM. The facility of voting by ballot/polling paper shall also be made available at the AGM venue. However, members who have already cast their vote by remote e-voting may participate in the AGM but shall not be entitled to vote again at the AGM. 4. The cut-off date for determining the eligibility of Members to vote by

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date and who has not cast vote by remote -voting and being present at the AGM only shall be entitled to vote at the AGM. 5. The remote e-voting period begins on Wednesday,27th September,2023 from

e- voting shall not be allowed beyond the said date and time. 6. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after despatch of the Notice and holding shares as on the cut-off

remote e-voting as mentioned in the Notice of AGM. 7. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Shri Rakesh Dalvi, Sr. Manger, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel

8. Book Closure: Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations that the Register of Members and the Share Transfer Books of Company will be closed from Monday, 25th September 2023 to Saturday, 30th September 2023 (both days inclusive) for the purposes of AGM and determining the entitlement of the Members to the dividend for the financial year ended 31st March 2023, if declared at the AGM. The said dividend after declaration thereof by the Members, will be credited/despatched within four weeks of the conclusion of AGM after deduction of tax as per the provision of Income-tax Act 1961 to those Members whose names are borne on the Register of Members of the Company on 23rd, September 2023 or to their mandates. In respect of shares held by the Members in dematerialised form, divided will be credited/ despatched on the basis of details of beneficial ownership

By Order of the Board

Place: VPO:Rupana Date: 08.09.2023

(R.K.Bhandari) **Joint Managing Director**

Reserve Price

EMD

Rs. 29,00,000/-

Rs. 2,90,000/-

Rs. 79,00,000/-

Rs. 7,90,000/-

Rs. 88,00,000/-

Rs. 8,80,000/-

Rs. 18,50,000/-

Rs. 1,85,000/-

LOT : 1

Rs. 30,60,000/-

Rs. 72,000/-

Rs. 17,00,000/-

Rs. 1,70,000/-

E-AUCTION

as on 19.08.2020 together with further interest

w.e.f. 20.08.2020 and other expenses till the date

as on 19.08.2020 together with further interest

w.e.f. 20.08.2020 and other expenses till the

date in the account of Mr. Parkash Thakur.

n the account of Mr. Parkash Thakur

Jindal Cotex Limited

CIN NO.L17115PB1998PLC021084 Regd. Office: Village Mandiala Kalan, P.O Bija, Tehsil Khanna, Distt. Ludhiana (PB) 141412. Ph: 01628-289842, E-mail: cs@sjgroup.in, www.jindalcotex.com

NOTICE Notice pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA")

- and SEBI is given as follows: Business as set out in the Notice dated 01st September, 2023 for the 26th Annual General Meeting to be held on Saturday, 30th September, 2023 at Mandiala Kalan, P.O. Bija, Tehsil Khanna, Ludhiana-141412, Punjab at 10.30
- A.M. may be transacted by voting through electronic means. The remote e-voting window will open at 09.00 A.M. on 27th September, 2023 and closed at 05.00 P.M. on 29th September, 2023.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2023, may cast their vote electronically through electronic voting system of the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as well as voting through ballot at the AGM on the businesses as set out in the Notice of AGM.
- Any person who has not registered his email address with the company, respective depository or Registrar can get the same registered in the manner as specified in the notice of 26th Annual General Meeting.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder of the Company after email of the Notice of AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2023, may obtain the login ID and password
- for remote e-voting by sending a request at info@bigshareonline.com. The remote e-voting module will be disabled after the above time line by CDSL. and E-voting shall not be allowed thereafter.
- The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM. The members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise the right at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote again.
- Further pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015 with stock exchange(s), the register of members and the share transfer books of the company will remain closed from Saturday, 23rd September 2023 to Saturday, 30th September 2023 (Both days inclusive for
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the
- 11. The Notice and voting instructions, are available on the CDSL website www.evotingindia.com , on website of the Company at www.jindalcotex.com and on website of the stock exchanges at www.bseindia.com. and www.nseindia.com
- 12. Any querylgrievance connecting with voting by electronic means, should be addressed to the Compliance Officer at email address cs@sigroup.in.

For JINDAL COTEX LIMITED

Date: 08-09-2023

Place: Ludhiana

SANDEEP JINDAL (Managing Director) DIN: 01639743

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Place: Mohali (Punjab) Date: 07th September 2023

Name of the

For Career Point Limited Manmohan Pareek Company Secretary & Compliance Officer ICSI Membership No. A34858

Union Bank A Government of India Undertaking

Name of the

Stressed Asset Management Branch SCO 137-138, Sector-8 C, Chandigarh-160009 TeMbb. 88324278278009 Epitaila il bib 05078781 @ Qui o intratratro di oficialia atran k

District SAS Nagar, Punjab. Pin Code – 140308.

SALE NOTICE

Borrower/Mortgagor and Account Guarantor Borrower; Mr. Kadir Mohammad S/o Sh. Sabuddin, H. No. 1476, Mohalla Churian Wala, Manimajra, Chandigarh. 2. Mrs. Shahida, H. No. 1476, Mohalla Churian wala, Manimajra, Chandigarh. 3. Mr. Mohd Shakir, H. No. 1476, Mohalla Churian wala, Manimajra, Chandigarh. 4. Mr. Mohd Isha, H. No. 1476, Mohalla Churian wala, Manimajra, Chandigarh. **2nd Address –** House No. 1014, 3rd Floor, Near Ram Dairy, Mori gate, Manimajra, Chandigarh.

Rs. 36,00,000/-15.05.2017 Rs. 27,94,287/-Rs. 3,60,000/-(Rupees Twenty Seven Lacs Ninety Four Thousand Two Hundred Eighty Seven Only) as on 15.05.2017 together with further interest w.e.f. 16.05.2017 and other

Details of the Property to be sold EMG of H No. 1510/B-1 Mouza Rattpur, Pinjore, Tehsil & Distt. Panchkula, Constructed on Plo

EMD

Rs. 48,00,000/-

Rs. 25,00,000/-

LOT : 1

Rs. 19,00,000/-

Rs. 1,90,000/-

LOT: 2

Rs. 18.00.000/-

Rs. 1,80,000/-

LOT : 3

Rs. 35,50,000/-

Rs. 3,55,000/-

LOT: 4

Rs. 54,60,000/-

Rs. 5,46,000/-

LOT: 5

Rs. 36,90,000/-

Rs. 3,39,000/-

LOT: 6

Rs. 21,60,000/-

Rs. 2,16,000/-

measuring 200 Sq. Yds. comprising GF covered area 1200 Sq ft. appx. land comprised in HB No. 116, Kh/Kh No. 77/116, Khasra No 387/208/96/0-6, 389/208/96/0-2, kite 2, area 0-8 share ½ i.e 4 Biswa. East- Vacant Plot, West- Gali, South- H. No. 1511/B-1, North- House of

19.08.2020

01.09.2021

Demand Notice

Date &

Amount Claimed

22. Mata Gujri Enclave, Kharar, District SAS Nagar, Punjab. Pin Kaushalya Devi Code - 140301. Mr Parkash Thakur S/o Inder Lal (Co-Obligant), House No. 901, Sector 80, SAS Nagar, Punjab. Pin Code – 140308.

1509/B-1. (Type of Possession: Physical Possession).

Rs. 4,80,000/-Rs. 33,12,301.16 as on 19.08.2020 together with further interest w.e.f 20.08.2020 and other expenses till the date in the account of Mrs Kaushalya Devi W/o Inder Lal.

Details of the Property to be sold Booth No. 7,8,9,10 & 11, Chirag Chandigarh Enclave 2, comprised in Kh.Kh No. 397/401, Khasra No. 32//4/2/2 (2 19), 5/1/2(1-19), 5/2/1(3-15), Kite 3, total area 8 Kanal 13 Marlas being share comes to 25/1557 i.e. 2.79 Marlas or 83.00 Sq. yards, Hadbast No. 28, Vilaleg Jandour, Tehsil Kharar, District SAS Nagar (Mohali), Owned by Sh. Parkash Thakur S/o Inder Lal, Bounded as under: North- Built Flat, South- Parking/Road East-Booth No. 12, West-Booth No. 6. CERSAIId -200014563740CERSAIId -200014563740. (Type of Possession: Symbolic Possession) 1. Mrs. Kaushalya Devi W/o Inder Lal (Borrower) House No.

Mrs Kaushalya Devi W/o Inder Lal (Borrower) House No. 104,

Rs. 60,00,000/-19.08.2020

23. 104. Mata Guiri Enclave, Kharar, District SAS Nagar, Punjab. Rs. 57,78,585.00 as on Kaushalya Devi Pin Code - 140301. 2. Mr Nirmal Kumar Thakur (Co-Obligant) 19.08.2020 together with further interest w.e.f House No. 901, Sector 80, SAS Nagar, Punjab. Pin Code – 140308.

Senior Citizen Society, Sector 48, Chandigarh – 160047. **4. Smt. Neetu** W/o Parkash Thakur,

House No. 901, Sector 80, Mohali, District SAS Nagar (Mohali) – 140308.

Rs. 6,00,000/-20.08.2020 and other expenses till the date in the account of Mrs. Kaushalya Devi W/o Inder Lal. Details of the Property to be sold Site No. 4 (Size: 24' * 46"3' = 124 Sq Yards), Situated in Chandigarh Chirag Enclave, Kharar. Non Agriculture Land

Rs. 2,50,000/-Himani Vimal W/o Shri Sushil Kumar Vimal, ADD: H. No. 2251. Rs. 39,65,627.74 Manpower Ward No 5, BasantVihar, Kalka, Distt. Panchkula, PIN (Rupees Thirty NineLacs Sixty Five Thousand Supplier and CODE:134102. Mrs. Himani Vimal W/O Shri Sushil Kumar Six Hundred Twenty Nine and Paisa Seventy **Placement** Vimal (Proprietor in M/s Mahakali Manpower, Supplier and Four Only) Services

measuring 4.1/6 (i.e. 25/1038 share in total land measuring 8 Kanal- 13 Marla), comprising in Khewat/Khautoni No. 377/401, Khasra No. 32//4/2/2/2(2-19), 5/1/2(1

19), 5/2/1(3-15), kite-3, situated at Hadbast No. 28, Village Jandpur, Tehsil Kharar, District SAS Nagar (Mohali), Punjab. Owned by Smt. Kaushalya Devi W/o Inder Lal

Bounded by; North-Booths, South-Road (Internal), East-Site No. 3, West-Site No. 5, CERSAI Id -200014563740. (Type of Possession: Symbolic Possession

Placement Services), ADD: H.No. 2251, Ward No. 5, Basant Vihar, Kalka, Distt. Panchkula, PIN CODE: 134102. Co-Applicant/Co-Obligant : Mr Sushil Kumar Vimal S/O Shri Om Prakash Vimal (Guarantor in M/s Mahakali Manpower, Supplier and Placement Services), ADD: H.No. 2251, Ward No 5, Basant Vihar, Kalka, Distt. Panchkula PIN CODE: 134102.

Details of the Property to be sold Against Mortgage of the property/ies (CERSAI Registration Id: 200004138201) detailed under (as per title deed) Land and Building - Residential belonging to Mrs. Himani Vimal W/O Shri Sushil Kumar Vimal (Owner of the Property), situated at Plot Measuring1 Biswa 16 Biswasi Comprising khata No. 52/74 Khasra No. 88 Village Kurari Hadbast No 394 Basant Vihar, Sharma Colony Kalka MEASURING 1 BISWA - 16 BISWASIAN (90 Sq. yard) SITUATED AT Basant Vihar, Sharma Colony -KALKA and bounded by: East: Plot of Monika Muwal, West: Street 18 Feet, North: Street 20 Feet, South: Plot of Sood. (Type of Possession: Symbolic Possession).

Sh. Parkash Thakur

M/s Mahakali

1. Sh. Parkash Thakur S/o Inder Lal, House No. 901, Sector 80, Mohali, District SAS Nagar (Mohali) – 140308. 2. Smt. Kaushalya Rs. 1,21,80,697.63 (Rupees One Crore Twen Devi W/o Inder Lal, House No. 104, Mata Gujri Enclave, Kharar,

M/s Mahakali Manpower Supplier and Placement Services,

19.08.2020 One Lacs Eighty Thousand Six Hundred Ninet District SAS Nagar (Mohali) – 140301. 3. Sh. Nirmal Kumar Thakur S/o Inder Lal, HIG 106, Seven And Paisa Sixty Three Only) as c 30.12.2017 together with further interest w.e. 31.12.2017 till the date due.

Details of the Property/ies to be sold LOT: 1. Commercial Booth No. 23-24, Chirag Chandigarh Enclave, comprised in khewat No. 377/401 khasra no. 32//4/2/2 (2-19), 5/1/2 (1-19), 5/2/1(3-15) kite 3 msg 8 kanal 13 m share 11/1730 i.e. 1-1/10 marlas in Vill. Jandpur, Tehsil, Distt. Mohali in the name of Ms Neetu & Bounded as under: North: Booth No. 3,4, South: Parking, East: Street, West: Booth No. 22. (Type of Possession: Symbolic Possession).

LOT: 2. Commercial Booth No. 07-08, Chirag Enclave, comprised in knewat no. 714/724,715/725, 3103/3249 khasra no. 62//18/1 (4-2) 18/2(2-10), 12/1 (1-3), 17/2 (0-8), ,19(8-0), 21/2 (2-19), 24/1 (0-12), 22(8-0), 23 (8-0) kitte 9 msg 35 kanal 14 marlas share 8/7140 i.e. 8/10 marlas in Village Jandpur, Tehsil Distt. Mohali in the name of Ms Neetu. Bounded as under East: Street, West:Booth No.6, North: Booth No. 3-4, South: Street (Type of Possession: Symbolic Possession). LOT: 3. Commercial Showroom No. 12, Chirag Enclave, comprised in knewat no. 714/724,715/725, 3103/3249 khasra no.

marlas share 26/10710 i.e. 1-11/15 marlas in Village Kharar, Distt. SAS Nagar Mohali in the name of Ms. Neetu bounded as East: SCF1, West: Street, North: SCF-11, South: SCF 13. (Type of Possession: Symbolic Possession). LOT: 4. Commercial Showroom No. 18-19, Chirag Enclave, comprised in kh/kh no. 22/22 khasra no. 5//27/1/2/2 (2-13).27/2(1-1), 7//4(7-2), 6/1 (6-13) 7/1 (7-8), 7/2 (0-12), 14(8-0), 15/1/1 (0-16), kite 8 sitauted at hadbast no. 185 msg 2.83 marlas 283/68500 share in total rakba of land msg 34 kanal- 5 marlas in Kharar, Distt SAS Nagar Mohali in the name of Ms Neetu bounded as under:

62//18/1 (4-2) 18/2(2-10), 12/1 (1-3), 17/2 (0-8), 19(8-0), 21/2 (2-19), 24/1 (0-12), 22(8-0), 23 (8-0) kitte 9 msg 35 kanal 14

East: SCF 17, West: SCF 20, North: Rasta, South: Plot no. 2&3 (Type of Possession: Symbolic Possession). LOT: 5. Commercial Showroom No. 14, Chirag Enclave, comprised in khewat no. 714/724,715/725, 3103/3249 khasra no. 62//18/1 (4-2) 18/2(2-10), 12/1 (1-3), 17/2 (0-8), 19(8-0), 21/2 (2-19), 24/1 (0-12), 22(8-0), 23 (8-0) kitte 9 measuring 35 kanal 14 marlas share 1-11/15 marlas in Vill Kharar, Distt SAS Nagar Mohali in the name of Mr. Parkash Thakur bounded as: North: SCF-

1, West: Street, North: SCF13, South: Street (Type of Possession: Symbolic Possession). LOT: 6. Commercial Showroom No. 24, Chirag Enclave, comprised in knewat no. 714/724,715/725, 3103/3249 khasra no. 62//18/1 (4-2) 18/2(2-10), 12/1 (1-3), 17/2 (0-8),19(8-0), 21/2 (2-19), 24/1 (0-12), 22(8-0), 23 (8-0) kitte 9 msg 35 kanal 14 marlas share 14/7140 i.e. 1-4/10 marlas in vill Kharar, Distt. SAS Nagar Mohali in the name of Mr. Parkash Thakur bounded as: East SCF 23, West: SCF-25, North: Street, South: Other owner. (Type of Possession: Symbolic Possession)

Reserve Price Sr. Name of the Name of the **Borrower/Mortgagor and** No.

Account

Mr. Prakash

26.

Chirag Enclave, Near Mata Gujri Nagar, Mundi Kharar, Tehsil Kharar, District SAS Nagar, Punjab, comprising in Khewat/Khautoni No. 22/22, Khasra No. 5//27/1/2/2 (2-13), 27/2 (1-1), 7//4 (7-2), 6/1(6-13), 7/1(7-8), 7/2(0-12), 14(8-0), 15/1/1(0-16), Kitte 8 measuring 34 Kanal 5 Marlas Share 61/10275 i.e. 4-1/15 Mr. Prakash Mr. Parkash Thakur (Borrower), House No. 901, Sector 80, SAS

Singh (Guarantor), House No. A-16, New Generation Duplex, Dhakoli, Zirakpur,

Details of the Property to be sold Residential Land and Building at House No. 20,

Guarantor

Mr. Prakash Thakur (Borrower) House No. 901, Sector

80, SAS Nagar, Punjab. Pin Code – 140308. Mr Urvinder

marlas. Owned by Sh. Parkash Thakur S/o Inder Thakur. Bounded by: North-Built, South-Road, East - House, West - House No. 21, CERSAI Id 200044902063 (Type of Possession: Symbolic Possession) 27. Nagar, Punjab. Pin Code – 140308. Mr. Nirmal Kumar Thakur

(Guarantor), House No. 901, Sector 80, SAS Nagar, Punjab. Pin Code – 140308. **Details of the Property to be sold** Residential Land and Building at House No. 104, New Mata Gujri Enclave, Kharar. Land measuring 6.62 Marla or 200 Sq. Yards (i.e. 662/60600 share in total rakwa of land measuring 30 Kanal – 6 Marla), comprising in Khewat/Khautoni No. 256/258, Khasra No. 29//4/1/1(2-17),

7/2(5-4), 8/1/2(1-8), 13/1/1(0-2), 13/3/2(1-9), 14/1(0-6), 14/2(6-17), 15/2(3-10), 17(8-0), 18/1/2(1-2), Kite- 10, situated at Hadbast No. 184, Village Kharar, Tehsil Kharar, District SAS Nagar. Owned by Sh. Parkash Thakur. Bounded by : North- Plot No. 105, South- Plot No. 103, East – Rasta, West – Other Owner. CERSAI Id - 200049296304. (Type of Possession: Symbolic Possession) 1. Mr. Rakesh Thakur (Borrower) House No. 1904, Sector 19.08.2020 Mr. Rakesh 80, SAS Nagar, Punjab. Pin Code – 140308. **2 . Mr. Seema** Rs. 94,37,355/-

28. Thakur Thakur (Co-Applicant) House No. 1904, Sector 80, SAS as on 19.08.2020 together with further interest w.e.f.

Nagar, Punjab. Pin Code - 140308. 20.08.2020 and other expenses till the date in the Details of the Property to be sold Residential Land and Building at House No. 18, account of Mr. Rakesh Thakur. (Ground Floor + First Floor + Second Floor + Third Floor)(Area 1230*4 Sq.ft.), situated in Chandigan Chirag Enclave, Kharar. Non Agriculture Land measuring 5-7/9 Marla or 173.33 Sq. Yards (i.e. 52/1557 share in total rakwa of land measuring 8 Kanal – 13 Marla), comprising in Khewat/Khautoni No. 377/401, Khasra No. 32//4/2/2/(2-19), 5/1/2(1-19), 5/2/1(3-15), Kite-3, situated at Hadbast No. 28, Village Jandpur, Tehsil Kharar, District SAS Nagar Owned by Sh. Rakesh Thakur. Bounded as under: North-Internal Road, South-Open Land (Other Owner), East - House No. 17, CERSAI Id

200054121795. (Type of Possession : Symbolic Possession) Borrower: 1. Mr. Ravi Karan Singh S/o Sh. Gyan Singh, Mr. Ravi Karan 29. House No. 1095 Sector 43-B Chandigarh. Co-Borrower: Mrs. Harpreet Kaur W/o Mr. Ravi Karan Singh, House as on 02.01.2019 together withfurther interest w.e.f. No. 1095 Sector 43-B Chandigarh. 02.01.2019 and other expenses till the date in the

Details of the Property to be sold Resdential Flat H. No. 10A, 1st Floor situated in account of Mr. Ravi Karan Singh & Smt. Harpreet kaur. Chirag Chandigarh Enclave-II, Near Valley, Vidya School, Kharar SAS Nagar measuring 41 Sq. Yards. Owned by Mr. Ravi Karan Singh S/o Sh Gyan Singh, bounded as below East: House No. 9 FF West: House No. 11 FF, North: Road, South: Booth (Type of Possession: Symbolic Possession)

1. Borrower: M/s Shahpur Papers, Proprietor: Shri Ankur M/s Shahpur Gupta S/o Shri Subhash Gupta. Address: H. No. 94, Kalindi, **Papers** Phase 1, Green Park Colony, Yamuna Nagar – 135001

together with further interest, cost and Guarantor/Mortgager: 1. Shri Subhash Gupta S/o Shri Panna Lal, Address H No. 94 expenses w.e.f. 01.04.2021 Kalindi, Phase 1, Green Park Colony, Yamuna Nagar – 135001. 2. Shri Ankur Gupta S/o

Shri Subhash Gupta, Address: H No. 94, Kalindi, Phase 1, Green Park Colony, Yamuna Nagar – 135001. Details of the Property/ies to be sold LOT: 1. Sale Deed No. 3407 dated 11.06.2004. Commercial building belongs to Subhash Gupta having PID No. 391C594U64Aand Property No. B-4/2104/38/1/2, area 37.78 sq yards situated at maujaMundaMajra, Chita Mandir Road, Yamuna Nagar Haryana 135001. Bounded by: East: Property of Satya Narayan,

Rs. 3,06,000/-West: Road, North: Remaining Plot, South: Private Rsta 4 ft. wide, (CERSAIID: 200005119526 & 200005119572). 2. Sale Deed No. 3406 dated 11.06.2004. Commercial building belongs to Subhash Gupta having PID No. 391C594U64Band Property No. B-4/2104/38/1/2, area 159 sq yards situated at Mauja Munda Majra, Chita Mandir Road, Yamuna Nagar Haryana 135001. Bounded by: East: Property of Satya Narayan, West: Property Trishlaetc, North: Property of Satya Narayan, South: Property of Shri Ram Kirpal. (CERSAI ID: 200005119526 & 200005119572). (Type of Possession: Physical Possession).

LOT : 2. Sale Deed No. 12135 dated 15.02.2016Residential/Commercial building belongs to Ankur Gupta havingPID No. 389C106U127 and Khewat No.137//115, Khatuani No. 146 &147,Khasra No. 17//4 (4-0), area 64 sq yards situated at Mauja **LOT : 2** Rs. 7,20,000/-Gadhauli H.B. No. 412, Hanuman Colony, Yamuna Nagar Haryana 135001. Bounded by: East: Built House, West: Road 18 f

wide, North: Built House, South: Built House, (CERSAIID: 400015349315). (Type of Possession: Physical Possession). 1. M/s Dashmesh Cattle Feed (Prop. Mr. Subhash Kumar) Vill. Barog , Tehsil Narayangarh, Distt. Ambala, Haryana. 2. Mrs. Reena Cattle Feed

Rani W/o Mr. Subhash Kumar (Guarantor) # 31 A, Khede Wali Gali, Near Kheda (Rupees Twenty Four Lacs Sixty Nine Thousand Nine Bhadog, Disst. Ambala, Haryana.

Hundred Sixty Two & Paisa Fifty Only) as on 31.12.2017 together with further interest w.e.f. 01.01.2018 **Details of the Property to be sold** EMD of property measuring 1 kanal 10 marla i.e 15/107 share in land measuring 10 kanal 14 marla, comprised in Khewat/ Khatoni No. 68/78, Khasra No. 32//3/2/(1-16), 4(7-0),8/1(1-18), situated at village

Rs. 4,40,02,010.48 as on 31.03.2021

Bhadog HB no. 46, Sub Tehsil Shahzadpur and Distt. Ambala owned and possessed by Sh Subhash Kumar S/o Jarnail Singh vide Registered Transfer Deed entered at SI No. 1991 dated 11.03.2016 before Sub-Register, Shahzadpur and as per Intkal no. 2131 and Jamabandi for the year 2012-13, bounded as under: North: Bhuja 46-9 & Rasta 22" side, South: Bhuja 46-9 & land of Jaswinder singh etc., East: Bhuja 176'-0 & land of Smt Reena Rani, West: Bhuja 176'-0" & land of Gurmeet Singh (Type of Possession: Physical Possession) For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on Secured Creditor's website i.e. www.unionbankofindia.co.in and

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6)/Rule 9(1) OF STATUTORY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002 This may also be treated as notice u/r 8(6)/Rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to the borrower/s and guarantor/s of the said loan about the holding of E-Auction Sale on the above mentioned date.

financialexp.epapr.in

DATE: 06.09.2023

website: www.mstcecommerce.com. In case of problem related to EMD transfer/EMD refund or any issue related to Finance & account, bidders can

details are also provided in the help desk menu of the login page of the link: https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi. For Registration and Login and Bidding Rules visit https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

directly contact the help desk nos. 033-22901004/033-22895064 or write email to bbarik@mstcindia.co.in, shembram@mstcindia.co.in. The contact

AUTHORISED OFFICER, UNION BANK OF INDIA

PLACE : Chandigarh

Chandigarh

remote e-voting or voting at the AGM is Saturday,23rd September,2023. 10:00 A.M. and ends on Friday,29th September,2023 at 5:00 P.M. The remote

date i.e. Saturday,23rd September 2023 may follow the same instructions for

(East), Mumbai-400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 22 55 33.

to be received from the depositories for this purpose.

For Satia Industries Limited

Demand Notice

Date &

Amount Claimed

16.01.2018

19.08.2020

02.01.2019

07.04.2021

16.01.2018

Rs. 24,69,962.50

Rs. 28,04,994.10

Rs. 62,65,097.20

Rs. 31,78,587.20

(आवेदक)

(प्रतिवादी)

सार्वजनिक सूचना श्री निरंजन ऐयागरी तथा उनकी पत्नी श्रीमती स्टेफनी रीड लमिस के नाम में विला नं. 17. मैप्स्को कैरपाबेला, सेक्टर 82, गुड़गाँव, हरियाणा का मूल कॉन्वीयंस डीड तिथि 24.5.2022 गुम पंजाब नेशनल बैंक हो गया है। इस संदर्भ में 19.5.2023 को पुलिस स्टेशन, मौर्या एन्क्लेव. पीतमपुरा में दर्ज कराई गई है। यदि किसी को मिले तो कृपया सम्पर्क करें। विंकटेश राव ऐयागरी, मोबाईल **|**9811550423, प्राप्त करने वाले को

नेशनल दिव्यांगजन फाईनैन्स एन्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन (पूर्व नेश्ननल हैण्डीकैप्ड फाईनैन्स एन्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन) रिंड कास भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद (हरियाण) 121007, (CIN:-U74140HR1997NPL033446)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

नेजनल दिव्यांगजन फर्डनैन्स एन्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन (पूर्व नेशनल हैन्डीकैप्ड फाईनैन्स एन्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन) के मामले में, जिसका पर्जीकृत कार्यालय रेड कास भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद (हरियाणा)-121007 में है।

आम जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी केन्द्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की बारा 13 के तहत आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कपंनी अपनें पत्नीकृत कार्यालय को "हरियाणा राज्य मे" से "दिल्ली राज्य में" में स्थानांतरित करने मे सक्षम बनाने के लिए 25.12.2021 को आयोजित कंपनी की वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत फीर्म एमसीए-21 (www.mca.gov.in) पोर्टल पर दाखिल करके शिकायत दर्ज करा सकता है वा अपय पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के मीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पार्यवरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स नई दिल्ली-110003 के पते पर पर्जीकृत डाक द्वारा मेज सकते है वा सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी की उनके नीचे

(नवीन कुमार शाह) अध्यक्ष-सह-प्रंबध निदेशक दिनांक-06.09.2023

डीआईएन-10162769 स्थान- नर्ड दिल्ली ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली,

ऋण वसली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसुली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सुचना अधोलिखित वे गामले में : ओ ए नं. 476/2022

जे.के. फैब्रिक्स एवं अन्य मै. जे.के. फैब्रिक्स (ऋणधारक कम्पनी)

9/159, पंजाब नेशनल बैंक के निकट, कैलाश नगर, दिल्ली-31 श्री शाहिद अली, पुत्र श्री जफर अली

निवासीः सी-12/7, यमुना विहार, दिल्ली-53 जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने **रु. 92,75,931.59/- (रु. बानवे लाख पहचत्तर हजार नौ सौ इक्कतीस एवं पैसे उन्सठ मात्र**) की वसूली के लिये आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचन r द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 16.10.2023 को 10.30 पूर्वा. में अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति

तभी मामलों पर विचार विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी तथा इस उद्देश्य से:) सभी अधिवक्ता/वादीगण सिसको webexapplication/software डाउनलोड करें:

i) माननीय पीठासीन अधिकारी∕रजिस्ट्रार के द्वारा विचार की जाने वाली मामलों के लिये मीटिंग आईडी तथा पास्वर्ड डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल अर्थात् drt.gov.in पर स्वतः दैनिक कॉज लिस्ट में प्रदर्शित होगी।

ii) किसी प्रकार की आकस्मिकताओं के लिये अधिवक्ता/वादीगण फोन नं. 23748478 पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 9 अगस्त, 2023 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-II, दिल्ली

पतिवादी

ADITYA BIRLA CAPITAL

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कम्पाउण्ड-वेरावल, गुजरात-362266 शाखा कार्यालयः सिटी सेन्टर 932-935, आई.बी. कॉलेज के सामने, जी.टी.रोड, पानीपत, हरियाणा, 132103

परिशिष्ट IV [प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 का नियम 8(1) देखें] कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति के लिये) जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002

(2002 के 54) के अंतर्गत आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 20.06.2023 जारी कर ऋणधारकों जगिमन्दर (स्व. विकास के उपलब्ध कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत में), पुष्पा (स्व. विकास के उपलब्ध कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत में), जममिन्दर तथ पुष्पा को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 6,30,182/-(रु. छ: लाख तीस हजार एक सौ बयासी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 5 सितम्बर, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्तन निमयावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 6,30,182/-(रु. छ: लाख तीस हजार एक सौ बयासी मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण

मौजा मिलक उग्र खेरी, तहसील एवं जिला पानीपत, हरियाणा-132103 में स्थित रेक्ट नं. 1, किल्ला नं. 6/1 (3-8), 15/2 (3-6), 16/1 (3-12), 25/1/2 (1-7), 11/1 (1-1) में शामिल प्लॉट माप 50 वर्ग यार्ड्स, 01 मरला 6 सरसई जो भूमि माप 12 कनाल 14 मरला का 15/2286 वां शेयर है, का सभी भाग तथा हिस्सा। प्राधिकृत अधिकारी

तिथि: 05.09.2023

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड


CAREER POINT LIMITED

Registered Office: Village Tangori, Banur, Mohali, Punjab-140601 Corporate Office: CP Tower 1, Road No. 1, IPIA, Kota, Rajasthan-324005 CIN: L80100PB2000PLC054497. Phone: 080-47250011. 90575-32030 Website: www.cpil.in, E-mail: investors@cpil.in

को शाम 4:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओवीएम) के माध्यम से व्यवसायों को लेन—देन करने के लिए, जैसा कि एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित किया गया है के लिए आयोजित की जाएगी। कंपनी ने 06 सितंबर, 2023 को एजीएम बुलाने के नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी है, जिनके ईमेल पते कॉपीरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपन्न के अनुसार डीपी /आरटीए के साथ पंजीकृत हैं जिनमें 28 दिसंबर, 2022, 05 मई, 2022, 13 जनवरी, 2021, 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 05 मई, 2020 (एमसीए सर्कुलर), और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्रों के साथ पठित इसके परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2023/04 दिनांक 5 जनवरी 2023, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी। /सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सी/फडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, परिपत्र सं-सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी।/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 (सेबी परिपत्र)। एजीएम बुलाने की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://bit.ly/CPL-AR-2022-23.पर और आरटीए की वेबसाइट यानी www/ankitonline.com पर उपलब्ध है एतद्ववारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के प्रावधानों और कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स के तहत बनाए गए लागू नियम कंपनी की 23वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए एवं योग्य शेयर धारको को लाभांश वितरित करने के लिए शुक्रवार, 22 सितंबर 2023 से गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे। अधिनियम की धारा । 08 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के संशोधित और विनियम 44 के अनुसार, सदस्यों को www.evoting.nsdl.com पर एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई—वोटिंग) का उपयोग करते हुए एजीएम बुलाने के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों के वोटिंग अधिकार गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 (कट-ऑफ तिथि) को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में हों। रिमोट ई—वोटिंग की अवधि सोमवार 25 सितंबर, 2023 को सुबह 9 बजे शुरू होती है और बुधवार 27 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो और रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं खला था और अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे इस दौरान ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटि द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। यदि शेयरघारकों /सदस्यों के पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सहायता अनुभाग के तहत एनएसडीएल के हेल्पडेस्क का उल्लेख कर सकते हैं या डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल evoting@nsdl.co.in या टोल फ्री नंबर 18001020990 और 1800224430 और सीडीएसएल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर कॉल करें या क्रमशः 022- 23058738 या 022-23058542-43 को ईमेल भेज सकते हैं और पर संपर्क करें।शेयरधारक किसी भी प्रश्न के संबंध में investors@cpil.in पर कंपनी

जगहः मोहाली

कॅरिअर पॉइंट लिमिटेड सीएस मनमोहन पारीक सदस्य क्रमांकः A34858



पता : कैन फिन होम्स लिमिटेड नं. 59-60, प्रथम तल, नीलम बाटा चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद 121001, दूरभाष : 0129-2436527 / 2436596, मोबा. नं.: 7625079140

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (नियमावली) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण

एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कैन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत तथा नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें यहां नीचे सूचीबद्ध उधारकर्ताओं / गारंटरों (यहां इसमें इसके उपरांत "उक्त उधारकर्ताओं" के रूप में संदर्भित) को, सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, सूचना में अंकित धनराशियों का,

उक्त निर्गत सूचनायें डाकीय प्राधिकारियों द्वारा अप्रदायकृत रूप में वापस की जा चुकी हैं / उन्हें उधारकर्ताओं द्वारा अनुसार, उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पतों के परिसरों पर इन सूचनाओं को चिपकाने का निर्णय लिया है।

क्र. सं.	उधारकर्ताओं / गारंटरों के नाम उनके पते के साथ	मांग सूचना के अनुसार अभ्यर्थित राशि*	प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण
1.	1. श्री गिरीश चंद्र मठपाल (उधारकर्ता), 2. श्रीमती पुष्पा मठपाल (सह—उधारकर्ता), पता : 1417 / 12, पर्वतीय कॉलोनी—2, बाल कल्याण स्कूल एयरफोर्स रोड के पास, एनआईटी फरीदाबाद हरियाणा 121005, 3. श्री प्रकाश चंद (गारंटर), पता : मकान नं. 1175 नवीन पर्वतीय कॉलोनी, ग्राम सारन फरीदाबाद, हरियाणा 121005	29.08.2023	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश् जो खसरा सं. 7//17, 16/1 16/2, 24, 25 पर मौजा घोर्च तहसील बल्लबगढ़ फरीदाबाद प्लॉट नं. 72 क्षेत्रफल 75 वर्ग गज फरीदाबाद 121005 में स्थित है।
2.	 श्रीमती राकेश देवी (उधारकर्ता) श्री महेश पायला (सह—उधारकर्ता) श्री मनीष पायला (गारंटर) पता : मकान नं. डीबी 1528, गाजीपुर रोड, डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद, हिरयाणा 121001 	रु. 24,07,391/- 01.09.2023 के अनुसार एनपीए की तिथि 29.08.2023	संपत्ति के समस्त वह भाग तथ अंश, जो रेक्ट. नं. 52 किला नं 2/2, 3 पर, क्षेत्र माप 100 वर् गज, मौजा डबुआ, तहसील एर जनपद फरीदाबाद, हरियाण 121001 में स्थित है।
3.	 श्री ओम वीर सिंह (उधारकर्ता) पुष्पा मीणा (सह—उधारकर्ता) पता : मकान नं. 246, गली नं. 2, पुजारी हार्डवेयर के पास सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा 121004 राहुल कुमार (गारंटर) पता : मकान नंबर 1, फौजदार वाली गली, 24 फुट रोड, आदर्श नगर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा 	29.08.2023	संपत्ति मकान नं. 943 के समस्त वह भाग तथा अंश जो गली नं. 10 में, क्षेत्र माप 97.5 वर्ग गज, सुभाष कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद हरियाणा 121005 में स्थित है।

*उपरोक्त अंकित तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक अनुबंधितानुसार संविदागत दरों पर भावी ब्याज के साथ भुगतानयोग्य। आपको एतद्द्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उपरोक्त अंकित राशि का राशि पर ब्याज की संविदाकृत

दर के साथ नियत ब्याज के भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, भुगतान करने में विफल होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता उपर्युक्त

प्रतिभृति को प्रवर्तित करने के लिये सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ करने को विवश होंगे। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ताओं

/ गारंटरों का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त कराने हेतु उनके पास उपलब्ध समय के संदर्भ में, अधिनियम की धारा 13(8)

के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। दिनांक : 07-09-2023 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी स्थान : फरीदाबाद कैन फिन होम्स लिमिटेड A F ENTERPRISES LIMITED CIN: L18100DL1983PLC016354

Reg. Office: 15/18, Basement B Portion, West Patel Nagar, Delhi DL 110008 Corporate office cum Factory: Plot No. 8, Sector-5, Mathura Road, Faridabad-, Haryana, 121006 Email: info.afenterprises@gmail.com, cs@ridh.in Tel: +91-7428399452, Website: http://afenterprisesltd.in/ PUBLIC NOTICE

xchange Board of India("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No.10/2022 dated December 28,2022 read with Circular No.14/2020 dated April 08,2020, Circular No.17/2020 dated April 13,2020, Circular No.20/2020 dated May 05,2020 and Circular No.02/2022 dated May 05,2022 (collective) referred as 'MCA Circulars') and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5,2023 and SEBI HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May13,2022 ('SEBI Circulars') (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively eferred as 'Circulars'), Notice is hereby given that: the Fortieth (40)Annual General Meeting('AGM') of the Member f AF Enterprises Limited ('Company') will be held on Friday, September 29, 2023 at 01:30 p.m. (IST) through fideo Conferencing /Other Audio Visual Means("VC/OAVM"), without the physical presence of the Members at the vGM, to transact the businesses as set out in the Notice convening the 40° AGM (AGM Notice'). Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. n compliance with the Circulars, AGM Notice along with the Integrated Annual Report for FY 2022-23 has been ent only through electronic mode to those Members whose email IDs are registered with the Company/ Registra and Transfer Agent('RTA')/ Depository Participant ('DP'). The emailing of AGM Notice to all members has been completed on September, 7, 2023. The afore said documents are also available on the Company's website at https:/

Websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited("NSDL") at <u>www.evoting.nsdl.com</u> . Members whose email IDs are already registered with the ompany/RTA/DP, may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Notice. Members who have not registered their email IDs, are requested to register the same for receiving a ommunications including Integrated Annual Report, Notices etc. from the Company electronically as per process entioned below: (i) Members holding equity shares of the Company in demat form are requested to approach their espective DP and follow the process advised by DP. (ii)Members holding equity shares of the Company in physica orm may register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant Forms with Company's RTA, M/s kyline Financial Services Pvt. Ltd. at admin@skylinerta.com .Members may download the prescribed Forms from he Company's website at https://www.afenterprisesItd.in . Incompliance with provisions of Section108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules ,2014, Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements). Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), as amended , read with MCA Circulars , the Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-Voting facility (prior the AGM) and e-Voting facility (during the AGM), on all the resolutions set forth in AGM Notice. The facility of casting otes will be provided by NSDL Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote -Voting. The Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM, However, they will not be eligible to vote at the AGM. All the Members are informed that:

Thebusiness as set forth in the AGM Notice will be transacted through voting by electronic means in the form

The voting rights of Member(s)shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, August 22, 2023. Any person who is a member of the Company as on cut-off date is eligible to cast vote electronically through remote e-Voting or e-Voting at the AGM on all the resolutions set forth in the AGM Notice.

Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the Company ends the AGM Notice and holding shares as on cut off date i.e. Friday, September 22, 2023, may obtain the User ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in or info.afenterprises@gmail.com by mentioning their Folio No /DP ID and Client ID for casting their vote. However, if a person is already registered with NSDI for remote e- Voting then existing User ID and password can be used for casting the votes

The remote e-Voting shall commence on Tuesday, 26th September 2023 at 9:00 am IST; The remote e-Voting shall end on Thursday, 28th September 2023 at 5:00 pm IST; The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the 40th AGM, is 22th September 2023;

Remote e-Voting module shall be disabled after 5:00 pm IST on 28" September 2023; Any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the 40" AGM by email and holding shares as on the cut-off date ie. 22 September 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or info.afenterprises@gmail.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e- Voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

Members may note that: the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change

the facility for e-Voting shall also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-Voting and otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-Voting system at the

the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the 40th AGM may participate in the 40th AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the 40th AGM; and a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of

remote e-Voting, participating in the 40° AGM through VC/OAVM Facility and e-Voting during the 40° AGM; The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and members who have not registered their email address is provided in the Notice of the 40° and the 40° and the Notice of the 40° Those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with

the Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self attested scanned copy of the PAN Card; and self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Bank Statement, Passport) supporting the registered address of the Member, by email to the Company's email address: info. afenterprises@gmail.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant. vii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting

user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on tol free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Managel or Ms, Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4" Floor Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email 91 22 24994545 +91 22 24994550 the grievances connected with voting by electronic means. Members may also write to the Company's email address_info.afenterprises@gmail.com The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from 22nd September

2023 to 29th September 2023 (both days inclusive) For A F ENTERPRISES LIMITED

Payal Sachdeva (Company Secretary)

Date: 07.09.2023 Place: New Delhi

ARCHANA SOFTWARE LIMITED Registered Office: Land Marvel Nest, First Floor, No. 3, First Main Road, Indira Nagar,

Chennai - 600 020, Tamil Nadu, India; Tel: +91 44 64555955; Fax: 044 24405166; Email: archanainvestors@gmail.com; Website: www.archanasoftware.com; Corporate Identification Number: L17120TN1994PLC029226

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Archana Software Limited ("Target Company") under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations, 2011") in relation to the open offer made by Mr. Shaju Thomas ("Acquirer 1") and Mrs. Linta P Jose ("Acquirer 2") (Acquirer 1 and Acquirer 2 are hereinafter collectively referred to as "Acquirers"), to the public shareholders of the Target Company.

Date	September 07, 2023
Name of the Target Company	Archana Software Limited
Details of the Offer pertaining to Target Company	The Open Offer is being made by the Acquirers in terms of Regulations 3 and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 for acquisition of up to 15,77,342 (Fifteen Lakhs Seventy Seven Thousand Three Hundred and Forty Two) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10/- each ("Equity Shares"), representing 26% of the total voting share capital of the Target Company on a fully diluted basis, as of the tenth working day from the closure of the tendering period of the open offer from the eligible shareholders of the Target Company for cash at a price of ₹ 3.78/- (Rupees Three and Seventy Eight Paise only) per equity share ("Open Offer")
Name of the Acquirers and PAC with the acquirer	Acquirer 1 – Mr. Shaju Thomas; and Acquirer 2 – Mrs. Linta P Jose There are no PAC(s) with the Acquirers for the purpose of Open Offer.
Name of the Manager to the offer	Saffron Capital Advisors Private Limited 605, Sixth Floor, Centre Point, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059; Tel. No.: +91 22 49730394; Email id: openoffers@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com Investor grievance id: investorgrievance@saffronadvisor.com SEBI Registration Number: INM 000011211 Contact Person: Ms. Pooja Jain/ Mr. Saurabh Gaikwad
Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	a) Mr. V. Paranthaman (DIN: 07145773) - Chairperson b) Mrs. P. Parimala (DIN: 07145766) - Member

c) Mr. S. Sonaachalam (DIN: 00486087) - Member . All the IDC Members are Independent & Non-Executive Directors on the IDC Member's relationship with the Target

Board of the Target Company.

ii). Further, the members of IDC confirm that they do not hold any Equity any other contract / relationship), if any Shares or other securities in the Target Company. iii). Other than their position as Directors of the Target Company, there are no other contracts or relationship with the Target Company. Trading in the Equity shares/other securities None of the IDC Members have traded in Equity Shares / other securities of the

Company (Director, Equity shares owned,

Disclosure of the voting pattern

Any other matter to be highlighted

of the Target Company by IDC Members Target Company during the: . 12 (twelve) months prior to the date of Public Announcement (PA) dated ii), period from the date of the PA till the date of this recommendation

None of the IDC Members holds any contracts, nor have any relationship with IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other the Acquirers. contract / relationship), if any. Trading in the Equity shares/other securities Not Applicable

of the acquirer by IDC Members Recommendation on the Open offer, as to Based on the review,) The IDC Members are of the view that the Offer Price of ₹ 3.78/- per Equity whether the offer, is or is not, fair and

Share is in line with the parameters prescribed by the SEBI (SAST) reasonable Regulations, 2011 and the same is fair and reasonable; ii). However, IDC Members would like to draw the attention of the shareholders that, the Equity Shares of the Target Company are trading on BSE at a price that

is higher than the Offer Price; and iii) It is advised to the shareholders to independently evaluate the open offer vis-à-vis current share price and take an informed decision before participating in the Offer

Summary of reasons for recommendation The IDC Members have reviewed a) Public Announcement ("PA") dated June 29, 2023; b) Detailed Public Statement ("DPS") dated July 03, 2023 was published on July 04, 2023 c) Draft Letter of Offer ("DLOF") dated July 10, 2023; d) Letter of Offer ("LOF") dated August 30, 2023; and The IDC members also noted that:

> terms of Regulations 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. b) The Offer Price is in accordance with Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. The Offer Price is higher than or equal to (i) negotiated price under the Share Purchase Agreement executed on June 29, 2023, i.e., ₹ 3.78/- per Equity Share and (ii) the price determined by the Acquirers and the Manager taking into account valuation parameters per Equity Share including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares.

The Equity Shares of the Target Company are infrequently traded in

Based on above, the IDC Members are of the view that the Offer Price of ₹ 3.78/- per Equity Shares is in line with the parameters prescribed by SEBI (SAST) Regulations, 2011. These recommendations were unanimously approved by the Members of the

Details of Independent Advisors, if any. None Terms not defined herein carry the meaning ascribed to them in the Letter of Offer dated August 30, 2023. To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of

V. Paranthaman

Chairperson IDC

OSBI

सर्वसमय माध्यम, कॉरपोरेट सेंटर, तीसरी मंजिल,

वर्ल्ड ट्रेंड केंद्र आर्केड, कफ परेड, मुंबई - 400005 शृद्धिपत्र-।

आरएफपी नं. SBI/AC/2023-24/003 दिनांक: 17.08.2023 GeM बिड आईडी GEM/2023/B/3838738 चरण XVII के अंतर्गत आउटसोर्स मॉडल (टीओएम) के तहत 13,500 एटीएम की

सेवाओं के लिए प्रति सफल लेनदेन आधार दर पर उपरोक्त आरएफपी के संदर्भ में एक शुद्धिपत्र–।

जारी किया गया है और इसे बँक की वेबसाइट https://bank.sbi पर प्रोक्योरमेंट न्यूज़

के अंतर्गत देखा जा सकता है, GeM पोर्टल https://gem.gov.in और www.eprocure.gov.in (CPPP पोर्टल) पर है. बोलियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय 21.09.2023 को दोपहर 03:00 बजे

हस्ताक्षर/-

उप महाप्रबंधक (I&R) स्थान: मुंबई सर्वसमय माध्यम विभाग दिनांक: 08.09.2023

ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली, 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसुली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सुचना ओए नं. 672/2021 तिथि 11.8.2023

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंकों तथा

पंजाब नेशनल बैंक लिक्षिता ट्रेडिंग कम्पनी सेवा में, प्रतिवादी

. **लक्षिता ट्रेडिंग कम्पनी** 50, मैन रोड, ओल्ड अर्जुन नगर ईस्ट दिल्ली-51 2. श्रीमती श्वेता सुरी मकान सं. 21, 3 रा तल, राजधानी निकुंज अपार्टमेन्ट, 91, पटपड़गंज, आई.पी. एक्स्टेंशन, दिल्ली-92

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने **रु. 32,66,596.34/- (रु. बत्तीस लाख छियासट हजार पांच सौ छियानबे एवं** पैसे चौंतीस मात्र) की वसूली के लिये आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 23.10.2023 को 10.30 पूर्वा. में अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों

अनपस्थिति में ही की जायेगी। सभी मामलों पर विचार विडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से की जायेगी तथा इस उद्देश्य सेः

i) सभी अधिवक्ता/वादीगण सिसको webexapplication/software डाउनलोड करें: ii) माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के द्वारा विचार की जाने वाली मामलों के लिये **मीटिंग आईडी तथा पास्वर्ड** डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल अर्थात् drt.gov.in पर स्वतः दैनिक कॉज लिस्ट में प्रदर्शित होगी।

ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी

iii) किसी प्रकार की आकरिमकताओं के लिये अधिवक्ता/वादीगण **फोन नं. 23748478** पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 11 अगस्त, 2023 को दी गई।

सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-II, दिल्ली

अधिकरण के आदेश र



टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंश लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 सीआईएन नं. U67190MH2008PLC187552

कब्जा–सूचना (अचल संपत्ति हेत्) (प्रतिमृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी **टाटा कैंपिटल हाउसिंग फाइनेंश लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित एक गांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उचारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के मीतर चुकाने के लिए कहा गया। उधारकर्ता द्वारा उक्त राशि का भूगतान करने में विफल होने पर, विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य तीर पर जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के नियम 8 कें साथ पवित धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते नीचें वर्णित संपत्ति का कब्ज़ा कर लिया है।

वेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी मी तरह का लेनदेन **टाटा कैपिटल हावसिंग फाइनेंश** लिमिटेड को नीचे निर्दिष्ट राशि, उसके साथ उस पर ब्याज और मांग सूचना की तारीख से दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभृति परिसंपशियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की घारा 13 की

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को, संपत्ति के साथ सौदा न करने के लिए

उप-धारा (८) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता संख्याः	बारुयताधारी (ऑ)/कानूनी वारिसॉ/ कानूनी प्रतिनिधि(ऑ) का नाम	ढिमांड नोटिस की राशि और तिथि	कब्जा तिथिः
9674528	श्री रमित गर्ग (उधारकर्ता के रूप में) और श्रीमती मीनू गर्ग और गुडविल आयरन एंड स्टील ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक के माध्यम से (सह-उधारकर्ता के रूप में)	24/12/2022 तक बकाया राशि रु. 1,10,82,578/ — (एक करोड़ दस लाख बयासी हजार पांच सी छिहत्तर रुपये मात्र)	04.09.2023

प्रतिभृति संपत्तियाँ/अचल संपत्तियाँ का विवरणः आवासीय फ्लैट न. ६०३ बिलिंडग नं. पी--०२, ६ठी मंजिल, 'क्रिसेंट पारंसी पेटलोल्स' गांव वजीरपुरा और मेवका, एसएआरई होम्स, सेक्टर 92 **गुढ़गांव** 122001 (हरियाणा) का वह समस्त हिस्सा और अंश, जिसकी माप लगभग 206.8 वर्ग मीटर/2226 वर्ग फीट और पलैट खरीदार समझौते के तहत सभी सामान्य सुविघाएं।

कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंश लिनिटेड

स्विस चैलेंज प्रणाली के अंतर्गत परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में रुचि की अभिव्यक्ति हेतु निमंत्रण

ढीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है, जिसका ांजीकृत कार्यालय कैपिटल प्वाइंट, बीकेएस मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 **("ढीबीएस** इंडिया") पर रिधत है, जो नीचे उल्लिखित परिसंपत्तियों ("परिसंपत्तियां") की बिक्री का प्रस्ताव रखर्त है। डीबीएस इंडिया लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप, **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है"** तथा **"जो कुछ भी है यही है"** के आधार पर स्विस चैलेंज प्रणाली के अंतर्गत 100% नकद आधार पर ररिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में सभी पात्र क्रेताओं की ओर से बोलियों को आमंत्रित करती है। बिक्री स्वस चैलेंज प्रणाली के अंतर्गत, मौजूदा 'ऑफर इन हैंड' **("एंकर बोली")** पर आधारित है, जिसके वंतर्गत उच्चतम बोली से मिलान करने का अधिकार होगा।

उन सभी इच्छक एवं पात्र व्यक्तियों को, जो प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में माग लेना चाहते हैं, उन्हें लिखित रूप में, रुचि की अभिव्यक्ति ("ईओआई") प्रस्तृत करके अपनी भागीदारी की इच्छा के बारे में सुचित करना आवश्यक होगा तथा डीबीएस इंडिया के साथ गैर-प्रकटीकरण समझौते **('एनडीए')** को नेष्पादित करना होगा, यदि पहले निष्पादित नहीं किया गया है।

भाधार प्रस्ताव **("आरक्षित मृल्य")** के रूप में एंकर बोली का उपयोग करते हुए, डीबीएस इंडिया द्वारा भधिग्रहीत परिसंपत्तियों (नीचे वर्णित) की बिक्री के संबंध में, एकर बोली के आधार पर, डीबीएस इंडिय आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप पात्र क्रेताओं से उनकी रुचि की अभिव्यक्ति **("ईओआई")** की मांग कर रहा है। तदनुसार, इच्छ्क बोलीदाताओं की पेशकश को आरक्षित मृल्य से अधिक होना चाहिए तथ कर बोलीदाता को नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसी स्विस चैलेंज प्रणाली के अनुसार प्रस्तृत उच्चतम होली की शर्तों को पूरा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। वे सभी इच्छुक पक्ष, जो बीली में भाग नेना चाहते हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे 12 सितंबर, 2023 को शाम 4:00 बजे तक, vinayagarwal@dbs.com पर ई-मेल द्वारा लिखित रूप में अपनी ईओआई जमा करके भाग लेने की

अपनी इच्छा के बारे में सूचित करें। परिसंपत्तियों के विवरण: "बोगनवेलिया", जेपी ग्रीन्स स्पोर्ट्स सिटी एसडीजेड, सेक्टर 25, वाईईआईडीए, जिला ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यू.पी. — 201 310 के ब्लॉक सी एवं ई में सी—29,

ई–1 एवं ई–5 पर ३ (तीन) रेसीडेंशियल प्लॉट । आरक्षित मूल्यः भारतीय रूपये (आईएनआर) 16,00,00,000/- (केवल भारतीय रूपये सोलह करोड)। उन सभी इच्छक एवं पात्र बोलीदाताओं को, ईओआई को जमा करने, एनढीए के निष्पादन तथा वापर्स थोग्य बयाना जमा राशि **("ईएमडी")**, जोकि आरक्षित मुख्य का 10% होगी, के जमा हो जाने के पश्चात तुरंत डेटा तक पहुंच प्रदान कर दी जाएगी। ईएमडी की राशि को 18 सितंबर 2023 को शाम 4:00 बजे

ईओआई को जमा करने तथा बोली प्रक्रिया से संबंधित निबंधन और शर्तों के दिवरणों को vinayagarwal@dbs.com या arunbabua@dbs.com पर एक ई—मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता

ईओआई को जमा करने का पता: ईओआई को निम्नलिखित पते पर अग्रेषित किया जाएगा: श्री विनय कुमार, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, दूसरी मंजिल, पश्चिमी पंजाबी बाग, नई दिल्ली

यदि आपका कोई प्रश्न हो अथवा प्रस्तावित बिक्री, ईओआई को जमा करने या एनडीए के निष्पादन वे संबंध आपको किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो आप <u>vinayagarwal@dbs.com</u> या arunbabua@dbs.com पर संपर्क कर सकते हैं।



पंजी, कार्यालय : 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057 दूरभाष : 011-49267000, टोल फ्री नंबर : 1800 212 8800, ईमेल : customer.care@herohfl.com

वेबसाइट : www.herohousingfinance.com, सीआईएन नं. : यू65192डीएल2016पीएलसी30148 अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्तियों हेतु) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्ति

के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नेयमावली २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न अंकितानुसार एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं को सूचना में अंकित राषि का उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों उधारकर्ता निर्धारित बकाया राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदृद्वारा उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित

सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, निम्न संदर्भित एक राषि तथा निम्न अंकित तिथि से इस राशि पर आकलित ब्याज और दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेतु हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभृत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की

उप–धारा (८) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। दायित्वधारक(कों) / विधिक मांग सूचना की उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक की तिथि तिथि/मांग सूचना खाता सं.

प्रतिनिधि(यों) के नाम (रचनागत / भौतिक) के अनुसार राशि HHFDELHOU प्रेम चंद सिंह, 14-06-2023, v. 10,42,929/-18000000319 दिनांक 13-06-2023 के अनुसार प्रतिभृत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण : जी.एफ. 2 (भू तल), छताधिकारों के बिना, भूखंड र सी-9/ए/4, आवृत्त क्षेत्र माप 30.19 वर्ग मीटर अर्थात् 325 वर्ग फूट, जो डी.एल.एफ. अंक्र विहार, ग्राम-सद्ल्लाबार

9 मीटर चौडी सड़क, पूर्व— 9 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण— भूखंड सं. सी—10/24, पश्चिम— भूखंड सं. सी—9ए/3 19-06-2023, ₹. 14,68,339/-विशाल श्रीवास्तव. दिनांक 19-06-2023 के अनुसार 20000007939 प्रतिभृत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण : अपार्टमेंट नं. आर—712, टाईप—डी, 7वां तल, टॉवर—12, ब्लॉक–आर, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसे ''वीवीआईपी एड्रेसेज'' के नाम से जाना जाता है, उसमें, भूमि खसरा सं. 1119,

परगना एवं तहसील लोनी, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर-

1120, 1125, 1126, 1146, 1147 एवं 1117 पर निर्मित, ग्राम न्र नगर के क्षेत्र तथा भृमि खसरा सं. 853, 854, 855 एवं ८५६ पर स्थित, ग्राम सादिक नगर, दोनों तहसील एवं जनपद गाजियाबाद, राज नगर एक्सटेंशन, एनएच–५८, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, एक आवृत्त पार्किंग स्थल के उपयोगाधिकार के साथ, जिसका अधि क्षेत्र मापन 130.06 वर्ग मीटर (1400 वर्ग फुट), आवृत्त क्षेत्र मापन 96.78 वर्ग मीटर (1041.73 वर्ग फुट) है।

अखिलेश चंद गिरि, 06-09-2023 21000019152, ₹. 17,80,553 / -(सांकेतिक) HHFNSPLAP दिनांक 19-06-2023 के अनुसार 22000021995 प्र<mark>तिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण :</mark> निर्मित प्रथम तल, छताधिकारों के बिना सीलिंग लेवल तक संपत्ति सं. बी—34 पर निर्मित, भूमि क्षेत्र मापन 50 वर्ग गज अर्थात् 41.80 वर्ग मीटर, खसरा सं. 209/143, 207/143,

166/4 में से, ग्राम घोंडा गुजरां बांगर के क्षेत्र में, राम गली सं. 2 की आबादी, उत्तरी घोंडा, इलाका शाहदरा,

दिल्ली–110053 में स्थित है। संपत्ति निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर– अन्य की संपत्ति, पूर्व– शासकीय विद्यालय,

दक्षिण— अन्य की संपत्ति, पश्चिम— सड़क 20 फुट चौड़ी। हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, दिनांक : 08-09-2023, स्थान : दिल्ली / राराक्ष कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Chandigarh

www.readwhere.com

उिचत ईनाम दिया जायेगा।

फार्म नं. आइएनसी-26 कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

30 के उप नियम (5) के खड़ें (ए) के मामले में

लिखे गए पर्जीकृत कार्यालय पते पर भी भेजे: रेड कास भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद (हरियाणा)-121007 नेशनल दिव्यांगजन फाईनैन्स एन्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पेरेशन की ओर से तथा उसके निमित्त

एतद्ववारा सूचना दी जाती है कि कॅरियर पॉइंट लिमिटेड के सदस्यों की 23वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 28 सितंबर, 2023

से संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी



कैन फिन होम्स लिमिटेड

मेल आईडी : faridabad@canfinhomes.com, CIN No.: L85110KA1987PLC008699 मांग सूचना

निम्न दिये गये विवरणों के अनुसार, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

विधिवत ढंग से पावतीकृत नहीं किया गया है। अतः कंपनी अब, भरसक सावधानी दिखाते हुये (नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार) मांग सूचना के इस प्रकाशन को प्रकाशित कर रही है। इसलिये, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम के ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में, निम्न विवरणितानुसार संबंधित पक्षकारों द्वारा कंपनी के पास निम्नलिखित परिसंपत्तियों को बंधककृत किया गया है।

NI.	नान उनक बरा के साव	जन्यावरा सारा	
1.	1. श्री गिरीश चंद्र मठपाल (उधारकर्ता), 2. श्रीमती पुष्पा मठपाल (सह—उधारकर्ता), पता : 1417 / 12, पर्वतीय कॉलोनी—2, बाल कल्याण स्कूल एयरफोर्स रोड के पास, एनआईटी फरीदाबाद हिरयाणा 121005, 3. श्री प्रकाश चंद (गारंटर), पता : मकान नं. 1175 नवीन पर्वतीय कॉलोनी, ग्राम सारन फरीदाबाद, हिरयाणा 121005	29.08.2023	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो खसरा सं. 7//17, 16/1, 16/2, 24, 25 पर मौजा घोची तहसील बल्लबगढ़ फरीदाबाद प्लॉट नं. 72 क्षेत्रफल 75 वर्ग गज फरीदाबाद 121005 में स्थित है।
2.	1. श्रीमती राकेश देवी (उधारकर्ता) 2. श्री महेश पायला (सह—उधारकर्ता) 3. श्री मनीष पायला (गारंटर) पता : मकान नं. डीबी 1528, गाजीपुर रोड, डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद, हरियाणा 121001	रु. 24,07,391/- 01.09.2023 के अनुसार एनपीए की तिथि 29.08.2023	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो रेक्ट. नं. 52 किला नं. 2/2, 3 पर, क्षेत्र माप 100 वर्ग गज, मौजा डबुआ, तहसील एवं जनपद फरीदाबाद, हरियाणा 121001 में स्थित है।
3.	1. श्री ओम वीर सिंह (उधारकर्ता) 2. पुष्पा मीणा (सह—उधारकर्ता) पता : मकान नं. 246, गली नं. 2, पुजारी हार्डवेयर के पास सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा 121004 3. राहुल कुमार (गारंटर) पता : मकान नंबर 1, फौजदार वाली गली, 24 फुट रोड, आदर्श नगर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा 121104	29.08.2023	संपत्ति मकान नं. 943 के समस्त वह भाग तथा अंश जो गली नं. 10 में, क्षेत्र माप 97.5 वर्ग गज, सुभाष कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद हरियाणा 121005 में स्थित है।

Archana Software Limited

Place: Chennai Date: September 07, 2023 Communicate India

statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise,

and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the Regulations.